



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 2014—वैशाख 5, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2014

क्र. 97-एस.सी. 1-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक-4-520-अठारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, डॉ. मसूद अख्तर, कलेक्टर, जिला छतरपुर, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद, महाराजपुर, जिला छतरपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

अनुसूची

| | (1) | (2) |
|----|-----|--------------------|
| 6 | | बजरंग वार्ड |
| 7 | | भगत सिंह वार्ड |
| 8 | | छत्रसाल वार्ड |
| 9 | | महात्मागांधी वार्ड |
| 10 | | अम्बेडकर वार्ड |
| 11 | | चन्द्रशेखर वार्ड |
| 12 | | रविदास वार्ड |
| 13 | | हरदौल वार्ड |
| 14 | | संजय गांधी वार्ड |
| 15 | | सावरी वार्ड |

| वार्ड क्रमांक | वार्ड का नाम |
|---------------|--------------|
| (1) | (2) |

| | |
|---|--------------------------|
| 1 | दयानंद वार्ड |
| 2 | शिवाजी वार्ड |
| 3 | लालबहादुर शास्त्री वार्ड |
| 4 | जवाहरलाल नेहरू वार्ड |
| 5 | विवेकानन्द वार्ड |

वार्ड विभाजन की सीमाएं

वार्ड क्रमांक 01—दयानंद वार्ड

उत्तर—नदी कुम्हेण से लौड़ी रोड मुख्य सड़क तक.

पूर्व—नारायणदास चौरसिया के मकान से घासीराम चौरसिया तक.

दक्षिण—घासीराम चौरसिया के मकान से मुन्नीलाल यादव के मकान से होते हुए कुम्हेण नदी तक.

पश्चिम—नदी कुम्हेण गौरारी मार्ग संगम से उत्तर की मुख्य रोड तक.

विवरण—नदी कुम्हेण से लौड़ी रोड मुख्य सड़क से पूर्व की ओर नारायण दास चौरसिया के मकान तक नारायणदास चौरसिया के मकान से घासीराम चौरसिया तक घासीराम चौरसिया के मकान से मुन्नी लाल यादव के मकान से होते हुए कुम्हेण नदी तक, नदी कुम्हेण गौरारी मार्ग संगम से उत्तर की मुख्य रोड तक.

वार्ड क्रमांक 02—शिवाजी वार्ड

उत्तर—नदी कुम्हेण त्रिवेणी संगम होते हुए इण्डेन गैस गोदाम के पीछे से सिंचाई कालोनी सम्मिलित करते हुए ठाकुरदास पटवारी के मकान तक.

पूर्व—ठाकुरदास पटवारी के मकान से गोर्वधन चौरसिया की रास्ता सम्मिलित करते हुए खंदिया तक मानिक चौरसिया तक.

दक्षिण—मानिक चौरसिया से कोतवाली मार्ग सम्मिलित करते हुए नदी कुम्हेण तक.

पश्चिम—नदी कुम्हेण से त्रिवेणी संगम तक.

विवरण—नदी कुम्हेण त्रिवेणी संगम होते हुए इण्डेन गैस गोदाम के पीछे से सिंचाई कालोनी सम्मिलित करते हुए ठाकुरदास पटवारी के मकान तक, ठाकुरदास पटवारी के मकान से गोर्वधन चौरसिया की रास्ता सम्मिलित करते हुए खंदिया तक मानिक चौरसिया से कोतवाली मार्ग सम्मिलित करते हुए नदी कुम्हेण तक, नदी कुम्हेण से त्रिवेणी संगम तक.

वार्ड क्रमांक 03—लालबहादुर शास्त्री वार्ड

उत्तर—श्मशान घाट की रास्ता से ईदगाह पहाड़ी तक.

पूर्व—ईदगाह से खंदिया होते हुए शारदा माता से बगराजन पहाड़ी पानी की टंकी तक.

दक्षिण—पानी की टंकी से हरिजन बस्ती होते हुए मुख्य रोड पर सुरेश के मकान तक.

पश्चिम—सुरेश चौरसिया के मकान से सट्टू की दुकान से होते हुए प्रभु सेठ के गोदाम तक.

विवरण—श्मशान घाट की रास्ता से ईदगाह पहाड़ी तक, ईदगाह से खंदिया होते हुए शारदा माता से बगराजन पहाड़ी पानी की टंकी से हरिजन बस्ती

होते हुए मुख्य रोड पर सुरेश के मकान तक, सुरेश चौरसिया के मकान से सट्टू की दुकान से होते हुए प्रभु सेठ के गोदाम तक.

वार्ड क्रमांक 04—जवाहरलाल नेहरू वार्ड

उत्तर—रामनारायण मार्ग से टाउन रोड होते हुए कैमा मार्ग तक.

पूर्व—कैमा मार्ग से बकील की खोर शामिल करते हुए कन्दी की रास्ता सम्मिलित करते हुए बालमकुन्द तक.

दक्षिण—बालमकुन्द से टाउन रोड बीरेन्द्र हडा के मकान तक.

पश्चिम—रामनारायण मार्ग होते हुए पुरानी कोतवाली होते हुए झिना बीरेन्द्र हडा चौरसिया तक.

विवरण—रामनारायण मार्ग से टाउन रोड हेतु हुए कैमा मार्ग तक, कैमा मार्ग से बकील की खोर शामिल करते हुए कन्दी की रास्ता सम्मिलित करते हुए बालमकुन्द तक, बालमकुन्द से टाउन रोड बीरेन्द्र हडा के मकान तक, रामनारायण मार्ग होते हुए पुरानी कोतवाली होते हुए झिना बीरेन्द्र हडा चौरसिया तक.

वार्ड क्रमांक 05—विवेकानन्द वार्ड

उत्तर—बगराजन मार्ग से सुरेन्द्र मलठया के मकान से होते हुए शिवसागर तालाब तक.

पूर्व—बगराजन मार्ग से टाउन रोड को पार करते हुए आंतकवारी मंदिर होते हुए दोनों रास्तों को सम्मिलित करते हुए दसरथ बौहरया तक.

दक्षिण—दसरथ बौहरया से हरई मार्ग पार करते हुए रास्ता वारी के संगम तक.

पश्चिम—रास्ता वारी संगम से शिवसागर तालाब तक एवं भैसासुर तक.

विवरण—बगराजन मार्ग से सुरेन्द्र मलठया के मकान से होते हुए शिवसागर तालाब तक, बगराजन मार्ग से टाउन रोड को पार करते हुए आंतकवारी मंदिर होते हुए दोनों रास्तों को सम्मिलित करते हुए दसरथ बौहरया तक, दसरथ बौहरया से हरई मार्ग पार करते हुए रास्ता वारी के संगम तक, रास्ता वारी संगम से शिवसागर तालाब तक एवं भैसासुर तक.

वार्ड क्रमांक 06—बजरंग वार्ड

उत्तर—बारी संगम से शिव सागर तालाब होते हुए रहुनिया श्मशान घाट होते हुए तेल के कुआ तक.

पूर्व—वगराजन पहाड़ी से तेल के कुआ तक.

दक्षिण—रहुनिया श्मशान घाट होते हुए वारी संगम तक.

पश्चिम—हनुमानटीक से टाउन रोड होते हुए चतुर लुहर तक.

विवरण—बारी संगम से शिव सागर तालाब होते हुए रहुनिया श्मशान घाट होते हुए तेल के कुआ तक, वगराजन पहाड़ी से तेल के कुआ तक, रहुनिया श्मशान घाट होते हुए वारी संगम तक, हनुमानटीक से टाउन रोड होते हुए चतुर लुहर तक.

वार्ड क्रमांक 07—भगत सिंह वार्ड

उत्तर—टाउन रोड घनश्याम सेठ के मकान से वेल के कुआ तक पटैरिया मार्ग.

पूर्व—पटैरिया मार्ग संगम से भटीपुरा तक.

दक्षिण—बारी संगम रास्ता होते हुए शिवसागर तालाब होते हुए नजरवाग सम्मिलित करते हुए पटैरिया मार्ग संगम तक.

पश्चिम—कारक देव से हनुमानटीक को लेते हुए वगराजन पहाड़ी तक.

विवरण—टाउन रोड घनश्याम सेठ के मकान से वेल के कुआ तक पटैरिया मार्ग, पटैरिया मार्ग संगम से भटीपुरा तक, बारी संगम रास्ता होते हुए शिवसागर तालाब होते हुए नजरवाग सम्मिलित करते हुए पटैरिया मार्ग संगम तक, कारक देव से हनुमानटीक को लेते हुए वगराजन पहाड़ी तक.

वार्ड क्रमांक 08—छत्रसाल वार्ड

उत्तर—टाउन रोड वावा की खोर एक तरफ की लाइन सम्मिलित करते हुए मऊ रास्ता संगम तक.

पूर्व—मऊ रास्ता संगम से सरमनपुरा तक.

दक्षिण—सरमनपुरा से कृषि भूमि होते पटैरिया मार्ग संगम तक.

पश्चिम—सरमनपुरा से खंगरया होते हुए पटैरिया मार्ग संगम तक.

विवरण—टाउन रोड वावा की खोर एक तरफ की लाइन सम्मिलित करते हुए मऊ रास्ता संगम तक, मऊ रास्ता संगम से सरमनपुरा तक, सरमनपुरा से कृषि भूमि होते पटैरिया मार्ग संगम तक, सरमनपुरा से खंगरया होते हुए पटैरिया मार्ग संगम तक.

वार्ड क्रमांक 09—महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर—शारदा मंदिर से कुम्हार मुहल्ला सम्मिलित करते हुए पुत्र जमीदार कालीमाई मंदिर तक.

पूर्व—कालीमाई से लेकर वावा की खोर तक.

दक्षिण—पटैरिया मार्ग संगम से एक तरफ की रास्ता लेते हुए मैन रोड तक.

पश्चिम—टाउन रोड से बगराजन पहाड़ियों की सीढ़ियों को सम्मिलित करते हुए शारदा मंदिर तक.

विवरण—शारदा मंदिर से कुम्हार मुहल्ला सम्मिलित करते हुए पुत्र जमीदार कालीमाई मंदिर तक, कालीमाई से लेकर वावा की खोर तक, पटैरिया मार्ग संगम से एक तरफ की रास्ता लेते हुए मैन रोड तक, टाउन रोड से बगराजन पहाड़ियों की सीढ़ियों को सम्मिलित करते हुए शारदा मंदिर तक.

वार्ड क्रमांक 10—अम्बेडकर वार्ड

उत्तर—बुन्देला मार्ग से टाउन रोड होते हुए दास का पुरवा तक.

पूर्व—दासा का पुरवा से मऊ रास्ता तक पठानीपुरा होते हुए.

दक्षिण—मऊ रास्ता संगम से कालीमाई होते हुए चमरोरा मार्ग में बगराजन पहाड़ी.

पश्चिम—बगराजन पहाड़ी से बुन्देला मार्ग संगम तक.

विवरण—बुन्देला मार्ग से टाउन रोड होते हुए दास का पुरवा तक, दासा का पुरवा से मऊ रास्ता तक पठानीपुरा होते हुए मऊ रास्ता संगम से कालीमाई होते हुए चमरोरा मार्ग में बगराजन पहाड़ी तक, बगराजन पहाड़ी से बुन्देला मार्ग संगम तक.

वार्ड क्रमांक 11—चन्द्रशेखर वार्ड

उत्तर—शारदा मंदिर से हरगोविन्द कोरी तक.

पूर्व—हरगोविन्द से रामलीला चबूतरा जमीदार मुहाल तक.

दक्षिण—रामलीला चबूतरा से प्रेस चन्द्र के मकान तक.

पश्चिम—प्रेमचन्द्र के मकान से बुन्देला रिपटा से गणेश मंदिर तक.

विवरण—शारदा मंदिर से हरगोविन्द कोरी तक, हरगोविन्द से रामलीला चबूतरा जमीदार मुहाल तक, रामलीला चबूतरा से प्रेस चन्द्र के मकान तक, प्रेमचन्द्र के मकान से बुन्देला रिपटा से गणेश मंदिर तक.

वार्ड क्रमांक 12—रविदास वार्ड

उत्तर—सांवरी पहाड़ी से रामलीला चबूतरा सीमा मानते हुए मुख्य सड़क तक.

पूर्व—मैन रोड रामलीला चबूतरा से खंदिया टीक हरिजन मुहाल तक.

दक्षिण—मुख्य सड़क से सांवरी पहाड़ी तक.

पश्चिम—मुख्य सड़क से खंदिया होते हुए रामलीला चबूतरा तक.

विवरण—सांवरी पहाड़ी से रामलीला चबूतरा सीमा मानते हुए मुख्य सड़क तक, मैन रोड रामलीला चबूतरा से खंदिया टीक हरिजन मुहाल तक, मुख्य सड़क से सांवरी पहाड़ी तक, मुख्य सड़क से खंदिया होते हुए रामलीला चबूतरा तक.

वार्ड क्रमांक 13—हरदौल वार्ड

उत्तर—सांवरीमाता मंदिर की सीढ़ियों से भरत नायक के मकान तक.

पूर्व—सांवरी माता की सीढ़ियों से भरत नायक के मकान होते हुए बैरियल तक लौड़ी रोड मुख्य सड़क तक.

दक्षिण—बैरियल से पूर्न कुम्हार तक रामलीला तक चबूतरा के पीछे होते हुए सांवरी पहाड़ी तक.

पश्चिम—रामलीला चबूतरा के पीछे होते हुए सांवरी पहाड़ी तक.

विवरण—सांवरीमाता मंदिर की सीढ़ियों से भरत नायक के मकान तक, सांवरी माता की सीढ़ियों से भरत नायक के मकान होते हुए बैरियल तक लौड़ी रोड मुख्य सड़क तक बैरियल से पूर्न कुम्हार तक रामलीला तक चबूतरा के पीछे होते हुए सांवरी पहाड़ी तक, रामलीला चबूतरा के पीछे होते हुए सांवरी पहाड़ी तक.

वार्ड क्रमांक 14—संजय गांधी वार्ड

उत्तर—वगराजन पहाड़ी से कुदुआपुरवा की सैटेलाइट शाला को शामिल करते हुए मुख्य सड़क लौड़ी रोड तक.

पूर्व—कुदुआपुरवा से मुख्य सड़क तक.

दक्षिण—मुख्य सड़क से वगराजन पहाड़ी सीढ़ियों.

पश्चिम—वगराजन की सीढ़ियों से प्रा. स्कूल कन्या शाला तक.

विवरण—वगराजन पहाड़ी से कुदुआपुरवा की सैटेलाइट शाला को शामिल करते हुए मुख्य सड़क लौड़ी रोड तक,

कुदुआपुरवा से मुख्य सड़क तक, मुख्य सड़क से वगराजन पहाड़ी सीढ़ियों, वगराजन की सीढ़ियों से प्रा. स्कूल कन्या शाला तक.

वार्ड क्रमांक 15—सावरी वार्ड

उत्तर—कन्हैया लाल नायक के घर के पास निकले नाले कुम्हेण नदी संग से पूर्व में नाले पर चलते हुए नेंगुवा रास्ता से नजरीय लाइन डालकर कवाड़ी नदिया में मिले.

पूर्व—कवाड़ी नदी नेंगुवा रास्ता के पुवाइंट से दक्षिण पूर्व की ओर चलते हुए कन्या प्राइमरी स्कूल कुस्मा तक.

दक्षिण—कन्या शाला से नगरैया मुहाल को शामिल करते हुए सिंचाई कालोनी छोड़ते हुए कुम्हेण नदी तक.

पश्चिम—कुम्हेण नदी से चलते सिमरधा ग्राम को सम्मिलित करते हुए कन्हैया लाल के घर के पास से निकलते नाले तक.

विवरण—कन्हैया लाल नायक के घर के पास निकले नाले कुम्हेण नदी संगम से पूर्व में नाले पर चलते हुए नेंगुवा रास्ता से नजरीय लाइन डालकर कवाड़ी नदिया में मिले, कवाड़ी नदी नेंगुवा रास्ता के पुवाइंट से दक्षिण पूर्व की ओर चलते हुए कन्या प्राइमरी स्कूल कुस्मा तक, कन्या शाला से नगरैया मुहाल को शामिल करते हुए सिंचाई कालोनी छोड़ते हुए कुम्हेण नदी तक, कुम्हेण नदी से चलते सिमरधा ग्राम को सम्मिलित करते हुए कन्हैया लाल के घर के पास से निकलते नाले तक.

मसूद अख्तर, कलेक्टर.

Chhatarpur, the 3rd April 2014

No. 97-SC 1-2014.—In exercise of the power conferred by the notification No. 4-520 XVIII-3-04, Dated 24th February 2004 of Urban Administration & Development Department of Government of Madhya Pradesh, I, Dr. Masood Akhtar, Collector, Distt-Chhatarpur, Madhya Pradesh under Section 29 (1) of Madhya Pradesh Act, 1961 (No. 37 of 1961) hear by determine the extent of wards of Nagar Parishad Maharajpur, Distt. Chhatarpur as per Schedule below:—

SCHEDULE

Number an Name of the Wards

| Ward No. (1) | Name of Wards (2) |
|-----------------|----------------------|
| 1 | Swami Dayanand Ward |

| (1) | (2) |
|-----|--------------------------|
| 2 | Shiwaji Ward |
| 3 | Lal Bahadur Shastri Ward |
| 4 | Jawahar Lal Nehru Ward |
| 5 | Vivekanand Ward |
| 6 | Bajrang Ward |
| 7 | Bhagat Singh Ward |
| 8 | Chhatrasal Ward |
| 9 | Mahatma Gandhi Ward |
| 10 | Dr. Ambedkar Ward |
| 11 | Chandra Shekhar Ward |
| 12 | Ravidas Ward |
| 13 | Hardol Ward |
| 14 | Sanjay Gandhi Ward |
| 15 | Sanwri Ward |

Boundaries of Ward Division**Ward No. 1—Swami Dayanand Ward**

North—River Kumhen to Lavkush Nagar the main Road till.

East—House of Narayandas Chaurasia to Ghasiram Chaurasia till.

South—Ghasiram Chaurasia to Munni Lal Yadav's house they are from the house to the River Kumhen till.

West—The main Road North to the confluence of the River route Kumhen Gurari.

Description—Lavkush town to Kumhen River from the main Road East from the town road that leads to the house of Narayandas Chaurasia, Narayandas Chaurasia to Ghasiram's house, Ghasiram Chaurasia Munni Lal Yadav from house to house, they are Kumhen River, North of the confluence of River Route Kumhen Gurari to the main road.

Ward No. 2—Shiwaji Ward

North—There are Kumhen Triveni Sangam River Irrigation Colony Indane Gas insert from the back of the warehouse to find the apartment of Patwari Takurdas.

East—Takurdas Patwari apartment house Govardhan Chaurasia Khandia find the way to insert the Manik Chaurasia.

South—Kumhen River route to the Police Station are included in Manik Chaurasia.

West—Kumhen River to the Triveni Sangam.

Description—There are Kumhen Triveni Sangam River Irrigation Colony Indane Gas insert from the back of the warehouse to find the apartment of Patwari Takurdas, Takurdas Patwari apartment house Govardhan Chaurasia Khandia find the way to insert the Manik Chaurasia, Kumhen River route to the Police Station are included in Manik Chaurasia, Kumhen River to the Triveni Sangam.

Ward No. 3—Lal Bahadur Shastri Ward

North—From Shamshan Ghat to the way Idgah hill.

East—Idgah to Khandia there are Sharda Mata from the water tank of Bagrajan hill.

South—From The water tank to there are harijan Colony the main road to the house of Suresh.

West—From Suresh Chaurasia house to Satlu shop covering Prabhu Seth godown

Description—From Shamshan Ghat to the way idgah hill, Idgah to Khandia there are Sharda Mata from the water tank of Bagrajan hill, from the water tank to there are harijan basti the main road to the house of Suresh, from Suresh Chaurasia house to satlu shop covering Prabhu seth Godown.

Ward No. 04- Jawahar Lal Nehru Ward

North—From Ramnarayan marg upto town road kema marg.

East—From Kema marg to including Khor of Bakeel including way of Kandi to Balmukund.

South—From Balmukund to town road Veerendra hada's house.

West—Route of Ramnarayan while the old Police Station Jhinna Veerendra hada Chaurasia.

Description—From Ramnarayan Marg upto town road kema marg, from Kema marg to including Khor of Bakeel including way of Kandi to Balmukund, from Balmukund to town road Veerendra hada's house, Route of Ramnarayan while the old police station Jhinna Veerendra hada Chaurasia till.

Ward No. 05-Vivekanand Ward

North—Route of Bagrajan to including house of Surendra Malthaya to Shiv Saga lake till.

East—Bajrajan Town Road crossing route via Aantkvari temple including both paths to the Dashrath Boharaya.

South—From Dashrath Boharaya to harrai route across the junction, turn way to Display.

West—Way to turn the confluence Shiv Sagar and Baisasur till.

Description.—Route of Bagrajan to including house of Surendra Malthaya to Shiv Sagar lake till, Bajrajan Town Road crossing route via Aantkvari temple including both paths to the Dashrath Boharaya, from Dashrath Boharaya to Harrai route across the junction, turn way to Display, Way to turn the confluence Shiv Sagar and Baisasur till.

Ward No. 06—Bajrang Ward

North—Shiv Sagar Lake to Shamshan Ghat junction turn while being Rahuniya to Tel ke Kuwan.

East—From Bagrajan Hill to Tel ke kuwan till

South—passing from Rahuniya shamshan ghat to Bari Sangam till.

West—Across town road from Hanuman Teek to Chatur Luhar till.

Description.—Shiv Sagar Lake to Shamshan Ghat junction turn while being Rahuniya to Tel ke Kuwan, from Bagrajan Hill to Tel ke Kuwan till, passing from Rahuniya Shamshan Ghat to Bari Sangam till, Across town road Hanuman Teek to Chatur Luhar till.

Ward No. 07- Bhagat Singh Ward

North—Town road of Ghanshayam house's to Bel ke kuwan till Pateriya marg.

East—Pateriya marg including to Bhatipura till.

South—Way to turn the Bari to Shiv Sagar across being Najarbag including to Pateriya marg.

West—From Karak Dev to Hanuman teek including Bagrajan Hill.

Description.—Town road of Ghanshayam house's to Bel ke Kuwan till Pateriya marg, Pateriya Marg including to Bhatipura till, Way to turn the Bari to Shiv Sagar across being Najarbag including to Pateriya Marg, From Karak Dev to Hanuman teek including Bagrajan Hill.

Ward No. 08-Chhatrasal Ward

North—Including of one way side town road Baba ki Khor to way to turn of Mau.

East—Mau way junction to Sarmanpura till.

South—Sarmanpura to agricultural land to pateriya junction till.

West—Sarmanpura to Khangarya route the pateriya junction.

Description.—Including of one way side town road Baba ki Khor to way to turn of Mau, Mau way junction to Sarmanpura till, Sarmanpura to agricultural land to pateriya junction till, Sarmanpura to Khangarya route the pateriya junction.

Ward No. 09—Mahatma Gandhi Ward

North—From Sharda Mata Mandir to including Kumhar Muhalla across Puttu Jimidar Kalimai Mandir till.

East—From Kalimai include to Baba ki Khor till.

South—From Pateriya junction to taking the way to one side mainroad till.

West—From town road to the Bagrajan hills to the ladders inclusive to Sharda Mandir.

Description.—From Sharda Mata Mandir to including Kumhar Muhalla across Puttu Jimidar Kalimai Mandir till, from Kalimai include to Baba ki Khor till, from Pateriya junction to taking the way to one side main road till, from town road to the Bagrajan hills to the ladders inclusive to Sharda Mandir.

Ward No. 10-Ambedkar Ward

North—Bundela Marg to town road from being Dasa ka Purwa till.

East—From Dasa ka Purwa to way to Mau to Pathanipura being.

South—way of Mau junction to being Kalimai to Chamrora marg in Bagrajan hill.

West—From Bagrajan hill to Bundela marg junction till.

Description.—Bundela Marg to town Road from being Dasa ka Purwa till, from Dasa ka Purwa to way of Mau to Pathanipura being, way of Mau junction to being Kalimai to Chamrora Marg in Bagrajan hill, from Bagrajan hill to Bundela Marg junction till.

Ward No. 11—Chandra Shekhar Ward

North—From Sharda Mandir to Hargovind kori till.
East—From Hargovind to Ramleela Chabutara Jamidari muhal till
South—From Ramleela Chabutara to house of Premchandra till.
West—From house of Premchandra to Bundela Ripta to Ganesh Mandir till.

Description.—From Sharda Mandir to Hargovind Kori till, from Hargovind to Ramleela Chabutara Jamidari Muhal till, from Ramleela Chabutara to house of Premchandra till, from house of Premchandra to Bundela Ripta to Ganesh Mandir till.

Ward No. 12—Ravidas Ward

North—From Sanwri hill to Ramleel Chabutara Assuming range to main road till.
East—From Main Road Ramleela Chabutara to Khandiya teek Harijan Colony till.
South—From Main Road to Sanvari hill till.
West—The Main road to Khandiya being to Ramleela Chabutra till.

Description.—From Sanwri hill to Ramleela Chabutara Assuming range to main road till, from main road Ramleela Chabutara to Khandiya teek Harijan Colony till, from main Raod to Sanwri hill till, the Main road to Khandiya being to Ramleela Chabutara till.

Ward No. 13—Hardol Ward

North—From Sanvari Mata Mandir of the ladders to Bharat Nayak house's till.
East—From Sanvari Mata Mandir of the leadders to Bharat Nayak house's being to Bariyal by Lavkush Nagar main road till.
South—From Bariyal to Pooran Kumhar by Ramleela till behind the Chabutara being to Sanvari hill.
West—Behind the Ramleela Chabutara bing to Sanvari hill till.

Description.—From Sanwri Mata Mandir of the ladders to Bharat Nayak house's till, from Sanwri Mata Mandir of the ladders to Bharat Nayak house's being to Bariyal by Lavkush Nagar main road till, from Bariyal to Pooran Kumhar by Ramleela till behind the Chabutara being to sanvari hill, behind the Ramleela Chabutara being to Sanwri hill till.

Ward No. 14—Sanjay Gandhi Ward

North—From Bagrajan hill to including satellite school of Kuduwa purwa to main road Lavkush Nagar till.
East—From Kuduwa Purwa to main road till.
South—The Main road to Bagrajan hill ladders.
West—The ladders of Bagrajan to the primary girls school till.

Description.—From Bagrajan hill to including satellite school of Kuduwa purwa to main road Lavkush Nagar till, from Kuduwa Purwa to main road till, The Main road to Bagrajan hill ladders, The ladders of Bagrajan to the primary girls school till.

Ward No. 15—Savri Gandhi Ward

North—From near the house of Kanhaiya lal Nayak leaving the drain Kumhen river confluence before walking down the drain Negua found a way to put the Najriya line from Kawari rivers to meet.
East—Way point of Kawadi river Neguan to walking drown of south east to Girls Primary School kusma till.
South—From Girls School to including Nagreiya Colony by leaving irrigation colony to kumhen river till.
West—From Kumhen moving river including Simardha gram while stepping to the brook near the house of Kanhiya Lal.

Description.—From Near the house of Kanhaiya lal Nayak leaving the drain Kumhen river confluence before walking down the drain Negua found a way to put the Najriya line from Kawari rivers to meet, way point of Kawadi river Neguan to walking drown of south east to Girls Primary School Kusma till, from Girls School to including Nagreiya Colony by leaving irrigation colony to kumhen river till, from Kumhen moving river including Simardha gram while stepping to the brook near the house of Kanhiya Lal.

छतरपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2014

क्र. 98-एस.सी. 1-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक-4-520-अठारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, डॉ. मसूद अख्तर, कलेक्टर, जिला छतरपुर, एटद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद, गढ़ीमलहरा, जिला छतरपुर के बार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

अनुसूची

| वार्ड क्रमांक (1) | वार्ड का नाम (2) |
|----------------------|--------------------------|
| 1 | चन्द्रशेखर आजाद वार्ड |
| 2 | भगत सिंह वार्ड |
| 3 | महात्मा गांधी वार्ड |
| 4 | तिलक वार्ड |
| 5 | जवाहरलाल नेहरू वार्ड |
| 6 | सरदार पटेल वार्ड |
| 7 | लालबहादुर शास्त्री वार्ड |
| 8 | बड़ी देवी वार्ड |
| 9 | धनुषधारी वार्ड |
| 10 | सुभाष वार्ड |
| 11 | आदर्श वार्ड |
| 12 | कालीमाई वार्ड |
| 13 | हरदौल वार्ड |
| 14 | संत रविदास वार्ड |
| 15 | गुरु घासीदास वार्ड |

वार्ड विभाजन की सीमायें

वार्ड क्रमांक 01—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

उत्तर—श्री घासीराम चौरसिया महाराजपुर वालों के कुए से कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुये महोबा रोड पर स्थित पंप हाउस तक.

पूर्व—पंप हाउस से प्रारंभ होकर मुख्य सड़क पर श्री कृपाशंकर मिश्रा के मकान तक.

दक्षिण—श्री कृपाशंकर मिश्रा के मकान से सीधे कमलेश पाठक

की बगल वाली रास्ता से सीधे कमलेश पाठक के सामने वाली रास्ता से सीधे झगड़ धोबी के मकान होकर दरगुंबा स्थित शमशानघाट होते हुये कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुये चर्तुभुज कुशवाहा के कुंआ तक.

पश्चिम—चर्तुभुज कुशवाहा के कुंआ से सीधे पडवाहा रास्ता होते हुये घासीराम चौरसिया महाराजपुर वालों के कुंआ तक.

वार्ड क्रमांक 02—भगत सिंह वार्ड

उत्तर—नगर परिषद के पंप हाउस से पूर्व में खसरा क्र. 830 के पास कुम्हाण नदी तक.

पूर्व—खसरा क्र. 830 से कुम्हाण नदी के पास तक.

दक्षिण—कुम्हाण नदी के पुल से सीधे महाराजपुर रोड होते हुये बिहारी सागर की पुलिया तक.

पश्चिम—बिहारी सागर की पुलिया से हरिजन कूप होकर प्राथमिक स्कूल वाली गली से सीधे बिल्ली खंगार के मकान को लेते हुये कृषि भूमि होकर पंप हाउस तक.

वार्ड क्रमांक 03—महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर—महोबा रोड स्थित पंप हाउस से कृषि भूमि होकर बिल्ली खंगार के मकान तक.

पूर्व—बिल्ली खंगार के मकान से होकर प्राथमिक स्कूल होकर हरिजन कूप को लेते हुये बिहारी सागर तालाब की पुलिया तक.

दक्षिण—बिहारी सागर तालाब की पुलिया से सीधे कृषि भूमि होते हुये अशोक कुमार मिश्रा के मकान रास्ता होकर रामेश्वर रावत के मकान तक.

पश्चिम—रामेश्वर रावत मेन रोड से सीधे बांदा सागर रोड होकर पंप हाउस तक.

वार्ड क्रमांक 04—तिलक वार्ड

उत्तर—रामेश्वर रावत के मकान से अशोक मिश्रा की रास्ता होकर सरमन चौरसिया के मकान को लेते हुये बिहारी सागर तालाब की पुलिया तक.

पूर्व—बिहारी सागर तालाब की पुलिया से बगराजन पहाड़ी तक.

दक्षिण—बगराजन पहाड़ी से सीधे तालाब होकर शासकीय पुलिया तक.

पश्चिम—शासकीय पुलिया से मुख्य सड़क होकर श्री रामेश्वर रावत के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 05—जवाहरलाल नेहरू वार्ड

उत्तर—चर्तुभुज कुशवाहा के कुंआ से सीधे लुगासी रोड होकर दरगुंवा स्थित शमशान होकर झगड़ धोबी के मकान से होकर कमलेश पाठक के सामने वाली रास्ता होकर सीधे कृपाशंकर के मकान तक.

पूर्व—कृपाशंकर मिश्रा के मकान से सीधे मैन रोड होकर स्टेट बैंक होते हुये चर्तुभुज कुशवाहा के मकान तक.

दक्षिण—चर्तुभुज कुशवाहा के मकान से सीधे कृषि भूमि होकर कल्याण वाली रास्ता तक.

पश्चिम—कल्याण वाली रास्ता से चर्तुभुज कुशवाहा के कुंआ तक.

वार्ड क्रमांक 06—सरदार पटेल वार्ड

उत्तर—कल्याण वाली रास्ता से कृषि भूमि होकर चर्तुभुज कुशवाहा के मकान तक.

पूर्व—चर्तुभुज कुशवाहा के मकान से तुलसी भरभूजा के मकान तक.

दक्षिण—तुलसी भरभूजा से सुखलाल काढी के मकान तक.

पश्चिम—सुखलाल काढी के मकान के सामने वाली गली से टौरिया चढ़कर सुलले मऊ वाले के मकान की पिछवाड़े होते हुये सीधे कृषि भूमि होकर कल्याण वाली बस्ती तक.

वार्ड क्रमांक 07—लालबहादुर शास्त्री वार्ड

उत्तर—कुंजी अग्रवाल के मकान से श्री चंद्रीदीन के मकान तक.

पूर्व—मुख्य सड़क पर चंद्रीदीन के मकान से डाक्टर रतन चौरसिया के सामने वाली रास्ता होकर श्री गज्जू साहू के मकान तक एवं श्री जयचन्द्र चौरसिया एवं किशन नाई की रास्ता होकर श्री बृज बिहारी वैथ से होकर कृषि भूमि के सामने मंदिर से बसोरे चौरसिया के मकान के पीछे तक.

दक्षिण—श्री बसोरे चौरसिया के मकान के पीछे से होकर कृषि भूमि होते हुये अखाड़ा मंदिर की बाउण्डी के पीछे होते हुये गोपी कंडेक्टर के मकान के पीछे से झारखंडी मंदिर के गेट तक.

पश्चिम—झारखंडी मंदिर के गेट से लेकर गोरे कुशवाहा एवं गोपी कंडेक्टर से होते हुये अखाड़ा मार्ग से होते हुये आदर्श कूप की रास्ता लेते हुये कुंजी अग्रवाल तक.

वार्ड क्रमांक 08—बड़ी देवी वार्ड

उत्तर—श्री जयचन्द्र चौरसिया के मकान से गज्जू साहू के तिराहा होते हुये श्री नाथूराम पटेल के मकान तक.

पूर्व—श्री नाथूराम पटेल के मकान से सीधे मुख्य सड़क होकर श्री जानकी गुप्ता के मकान तक.

दक्षिण—श्री जानकी गुप्ता के मकान के बगल से कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुये श्री बसोरे चौरसिया के मकान की बगल वाली रास्ता तक.

पश्चिम—श्री बसोरे चौरसिया के मकान की बगल वाली रास्ता से निकलकर किशन नाई की मकान की रास्ता होते हुये श्री जयचन्द्र चौरसिया के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 09—धनुषधारी वार्ड

उत्तर—अखाड़ा नाला से जानकी गुप्ता के मकान तक.

पूर्व—जानकी गुप्ता के मकान से मुख्य रोड पर स्थित जमुना चौरसिया कंडेक्टर के मकान तक.

दक्षिण—जमुना चौरसिया कंडेक्टर के मकान से इमाम चौक होते हुये राजेन्द्र मेहतों, हरगोविंद नायक होते हुये टीकाराम गुप्ता के मकान तक.

पश्चिम—श्री टीकाराम गुप्ता के मकान से जमुना साहू की रास्ता होते हुये पीपल के पेड़ को लेते हुये कृषि भूमि होते हुये अखाड़ा नाला तक.

वार्ड क्रमांक 10—सुभाष वार्ड

उत्तर—शासकीय पुलिया से सीधे तालाब होकर बगराजन पहाड़ी तक.

पूर्व—बगराजन पहाड़ी से सीधे नगर परिषद् की आखिरी सीमा तक.

दक्षिण—नगर परिषद् की आखिरी सीमा से महोबा रोड से जाने वाली रमना रास्ता तक.

पश्चिम—रमना रास्ता से मुख्य सड़क होकर गनेश प्रसाद सेठ के मकान होते हुये बोटी रैकवार के मकान को लेते हुये मस्तराम मंदिर की रास्ता होते हुये इमाम चौक होकर मुख्य सड़क तक एवं मुख्य सड़क से शासकीय पुलिया तक.

वार्ड क्रमांक 11—आदर्श वार्ड

उत्तर—श्री गनेश प्रसाद सेठ के मकान से कालीमाई मंदिर तक.

पूर्व—श्री गनेश प्रसाद सेठ के मकान से बैरियर होते हुये सीधे सड़क होकर रमना रास्ता तक.

दक्षिण—रमना रास्ता से हनुमान जी के मंदिर तक.

पश्चिम—रमना के हनुमान जी मंदिर से सीधे नया तालाब से चौपरा होते हुये दीने रैकवार के मकान से होते हुये सीधे कालीमाई मंदिर तक.

वार्ड क्रमांक 12—कालीमाई वार्ड

उत्तर—श्री गंगा चौरसिया के मकान से राजेन्द्र मेहतों हरगोविन्द नायक वाली रास्ता से होते हुये टीकाराम गुप्ता के मकान तक.

पूर्व—रमना मंदिर से चौपरा होते हुये दीने रैकवार के सामने होते हुये कालीमाई मंदिर से मस्तराम मंदिर की रास्ता होते हुये गंगाप्रसाद चौरसिया के मकान तक.

दक्षिण—नया तालाब से हनुमान जी मंदिर एवं रमना मंदिर तक.

पश्चिम—टीकाराम गुप्ता के मकान से अवध बिहारी खेरे एवं महादेव नामदेव होते हुये सीधे रमना मंदिर तक.

वार्ड क्रमांक 13—हरदौल वार्ड

उत्तर—अखाड़ा नाला एवं कृषि भूमि.

पूर्व—अखाड़ा नाला से पीपल के पेड़ होते हुये टीकाराम गुप्ता अवध बिहारी खेरे, नाथूराम नामदेव रास्ता होते हुये पहाड़ पर चढ़कर हनुमान जी के मंदिर तक.

दक्षिण—हनुमान जी मंदिर से नगर परिषद् की आखिरी सीमा तक.

पश्चिम—नगर परिषद् की आखिरी सीमा से चतुर्भुज मंदिर होते हुये देवीदीन मेहतर के मकान को लेते हुये दीनदयाल कोरी के मकान से अखाड़ा नाला तक.

वार्ड क्रमांक 14—गुरु घासीदास वार्ड

उत्तर—रमना मंदिर से कृषि भूमि होते हुये बगराजन माता मंदिर तक.

पूर्व—अखाड़ा मंदिर से राधाचरण साहू का मकान लेते हुये एवं कुर्याना की धर्मशाला होते हुये दीनदयाल कोरी की रास्ता होते हुये सीधे रमना मंदिर तक.

दक्षिण—नगर परिषद् की आखिरी सीमा से बगराजन माता मंदिर तक.

पश्चिम—बगराजन माता मंदिर से नगर परिषद् की आखिरी सीमा लुगासी रोड तक.

वार्ड क्रमांक 15—संत रविदास वार्ड

उत्तर—लुगासी रोड पर बगराजन रास्ता से लुगासी रोड होते हुये चतुर्भुज कुशवाहा के कुंआ तक.

पूर्व—चतुर्भुज कुशवाहा के कुंआ से कल्याण वाली रास्ता होते हुये कृषि भूमि को लेकर सीधे सुल्ले मठ वाले के मकान के पिछवाड़े होकर लक्ष्मीनारायण मंदिर लेते हुये सुखलाल कुशवाहा के मकान तक.

दक्षिण—सुखलाल कुशवाहा के मकान से सीधे अच्छेलाल अहिरवार के मकान वाली रास्ता होते हुये सीधे मलहरा रास्ता होते हुये बगराजन मंदिर की पहाड़ी तक.

पश्चिम—बगराजन मंदिर से सीधे बगराजन रास्ता होते हुये लगासी रोड तक.

मसूद अख्तर, कलेक्टर.

Chhatarpur, the 3rd April 2014

No. 98-SC 1/2014.—In exercise of the power conferred by the notification No. 4-520 XVIII-3-04, Dated 24th February 2004 of Urban Administration & Development Department of Government of Madhya Pradesh, I, Dr. Masood Akhtar, Collector, Distt-Chhatarpur, Madhya Pradesh under Section 29 (1) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) here by determine the extent of Wards of Nagar Parishad Gadimalhara, Distt. Chhatarpur as per Schedule below:—

SCHEDULE

Number and Name of the Wards

| Ward No. (1) | Name of Ward (2) |
|-----------------|----------------------------|
| 1 | Chandra Shekhar Aazad Ward |
| 2 | Bhagat Singh Ward |
| 3 | Mahatma Gandhi Ward |
| 4 | Tilak Ward |
| 5 | Jawahar Lal Nehru Ward |
| 6 | Sardar Patel Ward |
| 7 | Lal Bahadur Shastri Ward |
| 8 | Badi Devi Ward |
| 9 | Dhanusdhari Ward |
| 10 | Subhash Ward |
| 11 | Aadarsh Ward |

| (1) | (2) |
|-----|--------------------|
| 12 | Kalimai Ward |
| 13 | Hardol Ward |
| 14 | Sant Ravidas Ward |
| 15 | Guru Ghasidas Ward |

Boundaries of Ward Division**Ward No. 1—Chandra Shekhar Aazad Ward**

North—Shri Ghashi Ram Chaurasia Maharajpur wale ke kuye se krashi bhoomi ko sammilit karte huye mahoba road par isthit pump house tak.

East—pump house se prarambh hokar mukhya sadak par Shri Krapa Shankar Mishra ke makaan tak.

South—Shri Krapa Shankar Mishra ke makaan se seedhe kamlesh pathak ke bagal wali rasta se seedhe kamlesh pathak ke samne wali rasta se seedhe Jhagdoo dhobi ke makan hokar durgua isthitt samshaanghat hote huye Krashi bhoomi ke sammilit karte huye Chaturbhuj Kuswaha ke kua tak.

West—Chaturbhuj Kuswaha ke kua se sheedhe padwaha rasta hote huye Ghashi Ram Chaurasia Maharajpur walo ke kua tak.

Ward No. 2—Bhagat Singh Ward

North—Nagar Parishad ke pump house se poorb me Khashra No. 830 ke paas kumhaad nadi tak.

East—Khashra No. 830 se paas Kumhaad Nadi ke pul tak.

South—Kumhaad nadi ke pul se seedhe Maharajpur road hote huye Bihari Sagar ki puliya tak

West—Bihari Sagar ki puliya se harijan koop hokar primary school wali gali se seedhe billi khangaar ke makan ko late huye krashi bhoomi hokar pump house tak.

Ward No. 3—Mahatma Gandhi Ward

North—Mahoba raod isthitt pump house se krashi bhoomi hokar dilli khangaar ke makaan tak.

East—Hokar dilli khangaar ke makaan se hokar primary school hokar harijan koop ko late huye Bihari Sagar talab ki puliya tak.

South—Bihari Sagar talab ki puliya se seedhe krashi bhoomi hote huye Ashok Kumar Mishra ki

makaan ki rasta hokar Rameswar Ravat ke makaan tak.

West—Rameswar Ravat main road se seedhe banda sagar road hokar pump house tak.

Ward No. 4—Tilak Ward

North—Rameswar Ravat ke makaan se Ashok Mishra ki rasta hokar sarman Chaurasia ke makaan ko late huye Bihari Sagar talab ki puliya tak.

East—Huye Bihari Sagar talab ki puliya se bagrajan pahadi tak.

South—Bagrajan pahadi se seedhe talab hokar Govt. puliya tak.

West—Govt. puliya se main road hokar Shree Rameswar Rawat ke makaan tak.

Ward No. 5—Jawahar Lal Nehru Ward

North—Chaturbhuj Kuswaha ke kua se seedhe lugashi road hokar durgua isthitt samsaan hokar Jhagdu dhobi ke makaan se hokar Kamlesh Pathak ke samne wali rasta hokar seedhe Krapa Shankar ke makaan tak.

East—Krapa Shankar ke makaan se seedhe main road hokar state bank hote huye Chaturbhuj Kuswaha ke makaan tak.

South—Chaturbhuj Kuswaha ke makaan se seedhe krashi bhoomi hokar Kalyan wali rasta tak.

West—Kalyan wali rasta se Chaturbhuj Kuswaha ke kua tak.

Ward No. 6—Sardar Patel Ward

North—Kalyan wali rasta se Krashi bhoomi hokar Chaturbhuj Kuswaha ke makaan tak.

East—Chaturbhuj Kuswaha ke makaan se Tulsi Bharbhooja ke makaan tak.

South—Tulsi Bharbhooja ke makaan se Shukhlal Kachee ke makaan tak.

West—Se Shukhlal Kachee ke makaan ke samne wali gali se toria Chadkar sulle mau wale ki makaan ki pichwade hote huye seedhe krashi bhoomi hokar Kalyaan wali basti tak.

Ward No. 7—Lal Bahadur Shastri Ward

North—Kunji Agrawal ke makaan se shri Chandiden ke makan tak.

East—Main road par Shri Chandiden ke makan se Dr. Ratan Chaurasia ke samne wali rasta hokar

Shri Gajju Sahu ke makaan tak. aur Shri Jaichandra Chaurasia & Kishun nai ki rasta hokar Shri Brij Bihari vaidh se hokar krashi bhoomi ke samne Mandir se bsore Chaurasia ke makaan ke peeche tak.

South—Shri bsore Chaurasia ke makaan ke peeche se hokar krashi bhoomi hote huye akhada Mandir ki boundary ke peeche hote huye Gopi condector ke makan ke peeche se Jharkhadi Mandir ke gate tak.

West—Jharkhadi Mandir ke gate se hokar Gore Kushwaha & Gopi Condector se hote huye akhada marg se hote huye aadrsh koop ki rasta lete huye Kunji Agrawal tak.

Ward No. 8—Badi Devi Ward

North—Shri Jaichandra Chaurasia ke makaan se Gajju Sahu ke tiraha hote huye Shri Nathuram patel ke makan tak.

East—Shri Nathuram patel ke makan se seedhe main raod hokar Shri Janki Gupta ke makaan tak.

South—Shri Janki Gupta ke makaan ke bagal se krashi bhoomi ko samilit karte huye Shri Basore Chaurasia ke makaan ki bagal wali rasta tak.

West—Shri basore Chaurasia ke makaan ki bagal wali rasta se nikal kar Kishun nai ke makaan ki rasta hote huye Shri Jaichandra Chaurasia ke makaan tak.

Ward No. 9—Dhanusdhari Ward

North—Akhada nala se Janki Gupta ke makaan tak.

East—Janki Gupta ke makaan main road par isthit Jamna Chaurasia Condector se makaan tak.

South—Isthit Jamna Chaurasia Condector ke makaan se Imam Chouk hote huye Rajendra Mehto Hargovind Nayak hote huye Teekaram Gupta ke makaan tak.

West—Teekaram Gupta ke makaan se Jamna Sahu ki rasta hote huye peepal ke ped ko lete huye krashi bhoomi hote huye akhada nala tak.

Ward No. 10—Subhash Ward

North—Govt. puliya se seedhe talab hokar bagrajan pahadi tak.

East—Bagrajan pahadi se seedhe Nagar Parishad ki Aakhri seema tak.

South—Nagar Parishad ki aakhri seema se Mahoba road se Jane wali ramna rasta wali.

West—Ramna rasta se main road hokar Ganesh Prasad seth ke makaan hote huye boti raikwar ke makaan ko lete huye Mastram Mandir ke raste hote huye imaam chouk hokar main road tak & main road se Govt. puliya tak.

Ward No. 11—Aadarsh Ward

North—Ganesh Prasad Seth ke Makaan se Kalimai Mandir tak.

East—Ganesh Prasad Seth ke Makaan se Bariar hote huye seedhe sadak hokar Ramna rasta tak.

South—Ramna rasta se Hanumaan Ji ke Mandir tak.

West—Ramna ke Hanumaan Ji ke Mandir se seedhe naya talab se Chopra hote huye Deene Raikwar ke Makaan se hote huye seedhe Kalimai Mandir tak.

Ward No. 12—Kalimai Ward

North—Shri Ganga Chaurasia ke Makan se Rajendra Mehton Hargovind Nayak wali rasta se hote huye Teekaram ke Makaan tak.

East—Ramna Mandir se Chopra hote huye Deene Raikwar ke samne hote huye Kalimai Mandir se Mastram Mandir ki rasta hote huye Ganga Prasad Chaurasia ke Makan tak.

South—Naya talab se Hunumaan Ji ke Mandir & Ramna Mandir tak.

West—Tikaram Gupta ke Makan se Awadh Bihari Khare & Mahadev Namdev hote huye seedhe Ramna Mandir tak.

Ward No. 13—Hardol Ward

North—Akhada Nala & Krashi Bhoomi.

East—Akhada Nala se Peepal ke ped hote huye Teekaram Gupta Awadh Bihari Khare Nathuram Namdev ki rasta hote huye Pahad per Chadkar Hanumaan Ji ke Mandir tak.

South—Hanumaan Ji ke Mandir se Nagar Parishad ki Aakhiri seema tak.

West—Se Nagar Parishad ki Aakhiri seema se Chaturbhuj Mandir hote huye Devideen Mehtar ke Makan ko lete huye Deendyal Kori ke Makaan tak & Deendyal Kori ke makaan se Akhada Nala tak.

Ward No. 14—Sant Ravidas Ward

North—Ramna Mandir se Krashi Bhoomi hote huye Bagrajan Mata Mandir tak.

East—Akhada Mandir se Radhcharan Sahu ki Makan lete huye & Kuryana ki Dharmshala hote huye Deendyal Kori ki rasta hote huye seedhe Ramna Mindir tak.

South—Nagar Parishad ki Aakhiri seema se Bagrajan Mata Mindir tak.

West—Bagrajan Mata Mandir se Nagar Parishad ki Aakhiri seema Lulashee road tak.

Ward No. 15—Guru Ghasidas Ward

North—Lulashee road par Bagrajan Mata Mandir rasta se Lulashee road hote huye Chaturbhuj Kushwaha ke kua tak.

East—Chaturbhuj Kushwaha ke kua se Kalyan wali rasta hote huye Krashi Bhoomi ko lekar seedhe Sulle Mau wale ke Makan ke Pichwade hokar Laxmi Narayan Mandir ko lete huye Sukhlal Kushwaha ke Makan tak.

South—Sukhlal Kushwaha ke Makan se seedhe Achhe Lal Ahirwar ke Makan wali rasta hote huye seedhe Malhara rastha hote huye Bagrajan Mandir ki Pahadi tak.

West—Bagrajan Mandir se seedhe Bagrajan rasta hote huye Lugashee road tak.

MASOOD AKHTAR, Collector.

छतरपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2014

क्र. 99—एस.सी. 1.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक-4-520-अठारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, डॉ. मसूद अख्तार, कलेक्टर, जिला छतरपुर, एटद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद, बड़ा मलहरा, जिला छतरपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

अनुसूची

| वार्ड नं. (1) | वार्ड का नाम (2) |
|------------------|-------------------------|
| 1 | महारानी दुर्गावती वार्ड |
| 2 | महात्मा गांधी वार्ड |

| (1) | (2) |
|-----|-----------------------------|
| 3 | जवाहरलाल नेहरू वार्ड |
| 4 | इंदिरा गांधी वार्ड |
| 5 | लाल बहादुर शास्त्री वार्ड |
| 6 | छत्रपति वार्ड |
| 7 | गणेशवर्णी वार्ड |
| 8 | मौलाना आजाद वार्ड |
| 9 | महाराणा प्रताप वार्ड |
| 10 | नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड |
| 11 | डॉ. जाकिर हुसेन वार्ड |
| 12 | राजीव गांधी वार्ड |
| 13 | घौसीराम वार्ड |
| 14 | छत्रसाल वार्ड |
| 15 | डॉ. अम्बेडकर वार्ड |

वार्ड विभाजन की सीमाएं

वार्ड क्रमांक 01—महारानी दुर्गावती वार्ड

पश्चिम—एस.ए.एफ. कालोनी वॉदा सागर रोड होते हुए वर्मी तिगड़ा तक.

दक्षिण—वर्मी तिगड़ा से चलते हुए पूर्व की ओर अंचल गढ़ी पहाड़ी तक.

पूर्व—अंचलगढ़ी पहाड़ी से चलते हुए उत्तर की ओर रमुवा प्रजापति के मकान तक.

उत्तर—रमुवा प्रजापति के मकान से चलते हुए एस.ए.एफ. कालोनी वॉदा सागर रोड तक.

वार्ड क्रमांक 02—महात्मा गांधी वार्ड

पश्चिम—बाबूलाल दुबे के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए मीना विश्वकर्मा के मकान तक.

दक्षिण—मीना विश्वकर्मा के मकान से चलते हुए पूर्व की ओर अंचलगढ़ी पहाड़ी देवी सौर के मकान तक.

पूर्व—दक्षिण से पहाड़ी के नीचे होते हुए देवी सौर के मकान से उत्तर में कपूरचंद्र जैन के मकान तक.

उत्तर—कपूरचंद्र जैन के मकान से वॉदा सागर रोड चलते हुए बाबूलाल दुबे के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 03—जवाहर लाल नेहरू वार्ड

पश्चिम—धर्मदास राय के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए मुल्ली आदिवासी के मकान तक.

दक्षिण—मुल्ले आदिवासी के मकान से चलते हुए पूर्व की ओर लक्ष्मन आदिवासी के मकान तक.

पूर्व—दक्षिण से पूर्व की ओर अचलगढ़ पहाड़ी से चलते हुए उत्तर की ओर रामाधीन मिश्रा के मकान तक.

उत्तर—रामाधीन के मकान से चलते हुए वॉदा सागर रोड धर्मदास के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 04—इंदिरा गांधी वार्ड

पश्चिम—नाथूराम पन्ना की चक्की से वॉदा सागर रोड चलते हुए दक्षिण की ओर धनीराम अवस्थी के मकान तक.

दक्षिण—धनीराम अवस्थी के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए राजेन्द्र विश्वकर्मा से देवी जी मंदिर तक.

पूर्व—दक्षिण से ऊपर की ओर चलते हुए पूर्व दिशा में अचलगढ़ पहाड़ी होते हुए छोटे सोनी के मकान तक.

उत्तर—छोटे लाल सोनी, सुखदीन, तुलाराम असाटी के मकान से होते हुए नाथूराम पन्ना की चक्की तक.

वार्ड क्रमांक 05—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

पश्चिम—मेन रोड अमरीश गुप्ता की दुकान से वॉदा सागर रोड चलते हुए दीन दयाल असाटी के मकान तक.

दक्षिण—दीनदयाल असाटी के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए रोड के वार्यों तरफ का हिस्सा लेते हुए लल्लू सोनी के मकान से चलते हुए मल्ला ढीमर के मकान तक.

पूर्व—पूर्व में अचलगढ़ पहाड़ी चलते हुए जस्सू ढीमर के मकान चलते हुए पंचम बुनकर के मकान तक.

उत्तर—पंचम बुनकर के मकान से चलते हुए नीचे की ओर बाबूलाल शर्मा के मकान से चलते हुए भुमानी दीन अग्रवाल के मकान लेते हुए अमरीश गुप्ता की दुकान तक.

वार्ड क्रमांक 06—छत्रपति शिवाजी वार्ड

पश्चिम—सुरेश अग्रवाल की दुकान से वॉदा सागर रोड चलते हुए दक्षिण की ओर सुखदीन असाटी (बूची असाटी) के मकान तक.

दक्षिण—सुखदीन असाटी के मकान से चलते हुए पूर्व की ओर रामबाई रेकवार के मकान तक.

पूर्व—रामबाई रेकवार के मकान से चलते हुए तालाब बंधान दरउ धोबी के मकान तक.

उत्तर—पूर्व से चलते हुए पश्चिम की ओर कल्लू ढीमर के मकान से होते हुए देवीजी मंदिर से नीचे रामजानकी मंदिर होते हुए नीचे की ओर सुरेश अग्रवाल की दुकान तक.

वार्ड क्रमांक 07—गणेशबर्डी वार्ड

पश्चिम—पुरानी रेजे से वॉदा सागर रोड चलते हुए मुना अग्रवाल की दुकान तक.

दक्षिण—मुना अग्रवाल की दुकान से दक्षिण की ओर चलते हुए रामजानकी धर्मशाला होते हुए पूर्व में भोले सिपाही के मकान तक.

पूर्व—भोले सिपाही के मकान से रोड के दोनों तरफ चलते हुए जनक असाटी के मकान तक.

उत्तर—जनक असाटी के मकान से चलते हुए पुरानी रेज तक.

वार्ड क्रमांक 08—मौलाना आजाद वार्ड

पश्चिम—शंकर जी मंदिर से तालाब बंधाना होते हुए दक्षिण में बल्दुवा धोबी के मकान तक.

दक्षिण—बल्दुवा धोबी के मकान चलते हुए पूर्व की ओर हल्काई वसोर के मकान तक.

पूर्व—हल्काई वसोर के मकान से चलते हुए कन्धेदी बुनकर के मकान से होते हुए लल्लू वसोर के मकान तक.

उत्तर—लल्लू वसोर के मकान से चलते हुए राजाराम यादव के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 09—महाराणा प्रताप वार्ड

पश्चिम—ईदगाह मस्जिद से दक्षिण की ओर चलते हुए सलीम शाहगढ़ वाले के मकान तक.

दक्षिण—सलीम शाहगढ़ वाले के मकान से होते हुए रामेश्वर अग्निहोत्री टीचर के मकान तक.

पूर्व—राममिलन शर्मा के मकान से सुमित्रा देवी कैलाश प्रसाद सेन के मकान तक.

उत्तर—कल्ला साहू के मकान से होते हुए पश्चिम में तालाब नहर के नीचे-नीचे होते हुए बिहारी जू मंदिर के पीछे मैदान तक.

वार्ड क्रमांक 10—नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड

पश्चिम—तहसील कार्यालय के निवास कमरों से वॉदा सागर रोड चलते हुए कन्धेदी जैन गंज वारे के मकान तक.

दक्षिण—कन्धेदी जैन गंजवारे के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए बाल मुकुन्द असाटी हीरापुर वारे के मकान तक.

पूर्व—बाल मुकुन्द असाटी के मकान से होते हुए पूर्व की ओर विहारी जू मंदिर होते हुए राजा करन सिंह के मकान तक.

उत्तर—करन सिंह के मकान से चलते हुए वॉदा सागर रोड तहसील कार्यालय के निवास कमरों तक.

वार्ड क्रमांक 11—डॉ. जाकिर हुसेन वार्ड

पश्चिम—कनेरा नाला से चलते हुए दक्षिण की ओर जोत जमीन होते हुए गरखुवाँ रोड लेते हुए कन्या शाला तक.

दक्षिण—कन्या शाला से पूर्व की ओर कन्या शाला तक.

पूर्व—वॉदा सागर रोड होते हुए छविलाल चौरसिया के मकान तक.

उत्तर—छविलाल के मकान से कनेरा नाला तक.

वार्ड क्रमांक 12—राजीव गांधी वार्ड

पश्चिम—गरखुवाँ रोड की सड़क से कम्मोदपुरा वाले रोड लेते हुए ग्यादीन अहिरवार के मकान तक.

दक्षिण—ग्यादीन अहिरवार के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए भुमनियाँ अहिरवार के मकान से होते हुए जोत जमीन होते हुए शासकीय प्राथमिक पाठशाला कन्या स्कूल तक.

पूर्व—पूर्व दिशा में शासकीय कन्या स्कूल से चलते हुए संग्राम सिंह के मकान होते हुए सिसौदिया के मकान तक.

उत्तर—सिसौदिया के मकान से चलते हुए रोड के दोनों तरफ नटवावा होते हुए गरखुआ रोड तक.

वार्ड क्रमांक 13—घासीराम वार्ड

पश्चिम—ठलुवा वरेठा के मकान से चलते हुए दक्षिण की ओर पूर्ण ग्राम टोगरा होते हुए टूडेवार मंदिर तक.

दक्षिण—टूडेवार से दक्षिण एवं पूर्व की ओर चलते हुए घनश्याम अवस्थी पवन विल्थरे के मकान तक.

पूर्व—पवन विल्थरे के मकान से सागर वॉदा रोड होते हुए शासकीय प्राथमिक कन्या स्कूल तक.

उत्तर—शासकीय प्राथमिक पाठशाला से उत्तर की ओर चलते हुए कम्मोदपुरा में भुमनियाँ अहिरवार के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 14—छत्रसाल वार्ड

पश्चिम—विटनरी अस्पताल से चलते हुए पहाड़ी के नीचे चलते हुए परसादी अहिरवार के मकान तक.

दक्षिण—परसादी अहिरवार के मकान से मिहीलाल अहिरवार का मकान लेते हुए हैण्डपम्प के साथ संतोष असाटी के मकान तक.

पूर्व—संतोष असाटी के मकान से उत्तर की ओर अस्पताल तिगड़ा तक.

उत्तर—अस्पताल से पश्चिम की ओर चलते हुए विटनरी अस्पताल तक.

वार्ड क्रमांक 15—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

पश्चिम—राकेश बाल्मीकी के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए वारगुरेया माता होते हुए बमनी पुलिया तक.

दक्षिण—बमनी पुलिया कनू अहिरवार के मकान से मेन रोड तक.

पूर्व—मैन रोड वॉदा सागर रोड से उत्तर की ओर माधव सिंह पटवारी के मकान तक.

उत्तर—माधव पटवारी से लेकर पश्चिम की ओर नत्थू पठापुर वाले का मकान लेते हुए कनू अहिरवार के मकान तक.

मसूद अख्तर, कलेक्टर.

Chhatarpur, the 3rd April 2014

No. 99-SC 1-2014.—In exercise of the power confirmed by the notification No. 4-520 XVIII-3-04, Dated 24th February 2004 of Urban Administration & Development Department of Government of Madhya Pradesh, I, Dr. Masood Akhtar, Collector, Distt-Chhatarpur, Madhya Pradesh under Section 29 (1) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) here by determine the extent of Wards of Nagar Parishad Bada Malehra, Distt. Chhatarpur as per Schedule below:—

SCHEDULE

Number and Name of the Wards

| Ward No. (1) | Name of Ward (2) |
|-----------------|-------------------------|
| 1 | Maharani Durgawati Ward |

| (1) | (2) |
|-----|-----------------------------------|
| 2 | Mahatma Gandhi Ward |
| 3 | Jawahar Lal Nehru Ward |
| 4 | Indira Gandhi Ward |
| 5 | Lal Bahadur Shastri Ward |
| 6 | Chhatrapati Shivaji Ward |
| 7 | Ganeshwarni Ward |
| 8 | Molana Azad Ward |
| 9 | Maharana Pratap Ward |
| 10 | Netaji Subhash Chandra Baose Ward |
| 11 | Dr. Zakir Husain Ward |
| 12 | Rajiv Gandhi Ward |
| 13 | Ghansi Ram Ward |
| 14 | Chhatrasal Ward |
| 15 | Dr. Ambedkar Ward |

Boundaries of Ward Distribution

Ward No. 01—Maharani Durgawati Ward

West—S.A.F. Colony Banda Sagar Road to Bamny Tigadda.

South—Bamny Tigadda to West Anchal Gadhi Pahadi In the West.

East—Anchal Gadhi Pahadi to Ramua Prajapati house in North.

North—Ramua Prajapati's house to S.A.F. Colony Banda Sagar Road.

Ward No. 02—Mahatma Gandhi Ward

West—Babulal Dube's house to Meena Vishwakarma's house in South.

South—Meena Vishwakarma's house to Anchal Gadhi Pahadi Devi Sour's house in East.

East—Devi Sour's house in South Pahadi to Kapurchandra's house in North.

North—Kapurchandra's house to Babu Lal Dube's house along with Banda Sagar Road.

Ward No. 03—Jawahar Lal Nahru Ward

West—Daramdas Rai's house to Mulli Adivasi's house in South Direction.

South—Mulli Adivasi's house to Laxman Adivasi's house in East Direction.

East—South to East Direction from Anchal Gadhi to Ramadeen Mishra's house in North.

North—Ramadeen's house to Dhamdas house Banda Sagar Road.

Ward No. 04—Indra Gandhi Ward

West—Nathuram Panya's Flour Mill From Banda Sagar Road to Dhaniram Awasthi's house in East.

South—Dhaniram Awasthi's house to Rajendra Vishwakarma's house in East.

East—Anchal Pahadi in South to Chhote Lal Soni's house in the East.

North—Chhote Lal Soni, Sukhdin, Tularam Asati's house to Nathuram Panya's Flour Mill.

Ward No. 05—Lal Bahadur Shastri Ward

West—Main Road Ambrish Gupta's house to Dindayal Asati's house in Banda Sagar Road.

South—From Deendayal Asati's house to ward's East upto Lallu Soni's house (Left Side the Road).

East—In East Anchal Gadhi Pahadi Jassu Dhimar's house to Pancham Bunker's house.

North—Pancham Bunker's house down ward to Babu Lal Sharma's house to Bhumanidin Agrawal's house and Ambrish Gupta's shop.

Ward No. 06—Chhatrapati Shivaji Ward

West—Suresh Agrawal's shop to Sukhdin Asati's (Buchi Asati) house Banda Sagar Road in South.

South—Sukhdin Asati's (Buchi Asati) house to Rambai Raikwar's house in East.

East—Rambai Raikwar's house to Talab Bandhan Darau Dhobi's house.

North—East to West direction Kallu Dhimar's house via Deviji Mandir to Ramjanki Mandir Down Ward's Suresh Agrawal's shop.

Ward No. 07—Ganesh Barni Ward

West—Old Range Banda Sagar Road to Munna Agrawal's shop.

South—Munna Agrawal's shop to Ram Janki Dharmashala to Bhole Sipahi's house in East.

East—Bhole Sipahi's house to Both Sides of the Road,
Janak Asati's house.

North—Janakee Asati's house to Old Range.

Ward No. 08—Molana Azad Ward

West—Sankarji Mandir Talab Bandhan to Baldua
Dhobi's house in South.

South—Baldua Dhobi's house to Halkai Basor's house
in East.

East—Halkai Basor's house to Lallu Basor's house &
Kanchhedi Bunkar to Lallu Basor's house.

North—Lallu Basor's house to Rajaram Yadav's house.

Ward No. 09—Maharana Pratap Ward

West—Idgah Masjid to Salim Shahgad's house in
South.

South—Salim Shahgad's house to Rameswar
Agnihotri's house.

East—Rammilan Sharma, house to Sumitra Kailash
Sen's house.

North—Kalla Sahu's house to behind Biharju Mandir
long with Talab Nahar.

Ward No. 10—Netaji Subhash Chandra Bose Ward

West—Residenc house Tahsil Karyalay to Kanchhedi
Jain's house Banda Sagar Road.

South—Kanchhedi Jain's house to Balmukund Asati's
house (Hirapur Wale) in South.

East—Balmukund Asati's house to Raja Karan Singh
house Biharju Mandir in East.

North—Karan Singh's house to Residenes Tahsil
Karyalay Banda Sagar Road.

Ward No. 11—Dr. Zakir Hussain Ward

West—From Kanera Nala to Kanya Shala Garkhuwa
Road in South.

South—Kanya Shala to Kanya Shala in East.

East—Along with Banda Sagar Road to Chhabbi Lal
Chourasia's house.

North—Chhabbi Lal's house to Kanera Nala.

Ward No. 12—Rajiv Gandhi Ward

West—Garkhuwa Road Via Kamodpura Road to
Gyadin's house.

South—Gyadin's house to East ward Bhumania
Ahirwar's house to Govt. Praimary Kanya
School.

East—In East Govt. Kanya School to Sisodia's house
via Sangram Singh's house.

North—Sisodiya's house to both sides of the road via
Nat Baba Garkhuwa road.

Ward No. 13—Ghasiram Ward

West—Thalua Baretha's house to Tudebar Mandir in
South Direction with whole Vilege Tongra.

South—Tudewar to Ghanshyam Awasthi, Pavan
Bilthare's house in South.

East—Pavan Bilthare's house to Govt. Primary Kanya
School Bonda Sagar Road.

North—Govt. Primary School to Bhumania Ahirwar
(Kamodpura) house in North.

Ward No. 14—Chhatrashal Ward

West—Veterinary Hospital to Parsadi Ahirwar's house
along with Pahadi.

South—Parsadi Ahirwar's house to Santosh Asati's
house via Mihi Lal Ahirwar's house.

East—Santosh Asati's house to Hospital Tigadda in
North.

North—Hospital to Veterinary Hospital in West.

Ward No. 15—Dr. Ambedkar Ward

West—Rakesh Balmik's house to Bamni Puliya in
Barguraiya Mata in South.

South—Near Bamnipuliya Kannu Ahirwar house to
Main Road.

East—Main Road Banda Sagar Road to Madhav
Singh Patwari's house in North.

North—Madhav Patwari's house to Kannu Ahirwar's
house via Natthu Pathapur Bale house.

छतरपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2014

क्र. 100-एस.सी. 1-14.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक-4-520-अठाह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, डॉ. मसूद अख्तर, कलेक्टर, जिला छतरपुर, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद, घुवारा, जिला छतरपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

अनुसूची

| वार्ड क्रमांक (1) | वार्ड का नाम (2) |
|----------------------|---------------------------|
| 1 | जगदीश स्वामी वार्ड |
| 2 | हरदोल वार्ड |
| 3 | अवार देवी वार्ड |
| 4 | महाराणा प्रताप वार्ड |
| 5 | चन्द्रशेखर आजाद वार्ड |
| 6 | सुभाष चन्द्र बोस वार्ड |
| 7 | गायत्री वार्ड |
| 8 | अम्बे वार्ड |
| 9 | शंकर वार्ड |
| 10 | हनुमान वार्ड |
| 11 | छात्रावास वार्ड |
| 12 | भगतसिंह वार्ड |
| 13 | अम्बेडकर वार्ड |
| 14 | रविदास वार्ड |
| 15 | महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड |

वार्ड क्रमांक 1—जगदीश स्वामी वार्ड

उत्तर—रामदास जगदीश मंदिर से.

दक्षिण—नये कुंये से अजुददी ढीमर के मकान तक.

पूर्व—बड़ातालाब चौराहे से होते हुये जगत रजक तक एवं रत्ना रजक से होते हुये पर्वत रैकवार तक.

पश्चिम—संपूर्ण लल्लनखेरा.

वार्ड क्रमांक 2—हरदोल वार्ड

उत्तर—बलदेवा काछी के मकान से बृजलाल नामदेव, गोकल नामदेव के मकान से होते हुये भगुन सिंह के मकान तक.

दक्षिण—लक्ष्मन लुहार से भगुन सिंह, कूरा कुम्हार के मकान तक.

पूर्व—बाबूलाल कुम्हार से जलमा रैकवार तक.

पश्चिम—जानकी बाई प्रजापति से नथू ढीमर तक.

वार्ड क्रमांक 3—अबार देवी वार्ड

उत्तर—अजुदया ढीमर से हरदास नापित से होते हुये बारेलाल कोरी के मकान तक.

दक्षिण—जुज्जन साहू की चक्की से जगदीश साहू तक.

पूर्व—मुना कोरी से होते हुये गोविन्द सिंह लल्ला तक एवं मोहन सिंह से होते हुये कोमल विश्वकर्मा के मकान तक.

पश्चिम—नथू विश्वकर्मा से देवेन्द्र सिंह के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 4—महाराणा प्रताप वार्ड

उत्तर—वीर सिंह से पानी की टंकी तक.

दक्षिण—मुरारी जोशी से शर्मा जी के मकान से होते हुये सुखलाल जोशी के मकान तक.

पूर्व—अर्जुन सिंह के मकान से होते हुये अनंदी साहू से होते हुये वीर सिंह से होते हुये सत्यनारायण पाण्डेय के मकान तक.

पश्चिम—दयाचंद्र जैन के मकान से होते हुए कडोरी जोशी तक एवं मोहन साहू से होते हुये मस्जिद तक.

वार्ड क्रमांक 5—चंद्र शेखर आजाद वार्ड

उत्तर—जवाहर जैन से शीलचंद जैन के मकान तक.

दक्षिण—गुलाब चंद्र जैन से होते हुये कामता प्रसाद जैन, पुरुषोत्तम शुक्ला, सीताराम असाठी के मकान तक.

पूर्व—बाबूलाल जैन से देवी जी मंदिर तक.

पश्चिम—ज्ञानचंद्र वैद्य से धर्मेन्द्र खरे के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 6—सुभाष चंद्र बोस वार्ड

उत्तर—बड़ातालाब से द्वारका खरे तक.

दक्षिण—भाग्य प्रकाश जोशी से प्यारे लाल साहू के मकान तक.

पूर्व—धर्मदास नापित से कुंदन लाल ताम्रकार के मकान तक.

पश्चिम—खुमान लोधी के मकान से होते हुये बालगोविंद लोधी एवं जुजु बुनकर से मुना लाल खरे के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 7—गायत्री वार्ड

उत्तर—छिमन बाढ़ी के मकान से नारायण दास खरे के मकान तक.

दक्षिण—धनीमाली से होते हुये स्वरूप चंद्र जैन के मकान से अतुल जैन के मकान से अनंदी जैन के मकान तक.

पूर्व—राजपूत मास्टर जी से बारे रजक तक.

पश्चिम—विंदा साहू के मकान से सिंचाई कालोनी होते हुये सेंगर के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 8—अम्बे वार्ड

उत्तर—हरिगम साहू से होते हुये पुलिस चौकी से गनेशी रैकवार तक.

दक्षिण—भैयन रैकवार से गुंदे रैकवार तक.

पूर्व—मोहन रैकवार से खेरी बारे रैकवार तक.

पश्चिम—हल्का रैकवार से बालचंद रैकवार तक.

वार्ड क्रमांक 9—शंकर वार्ड

उत्तर—हरिश्चंद्र विश्वकर्मा से कालेज तक.

दक्षिण—देवीनगर से रघुवर साहू के मकान तक.

पूर्व—खुन्दू साहू के मकान से दाउसाब से होते हुये फौजदार मुहल्ला तक.

पश्चिम—कालेज से देवी नगर तक.

वार्ड क्रमांक 10—छत्रसाल वार्ड

उत्तर—कन्हैया खंगार से लल्लू असाठी की दुकान तक.

दक्षिण—चिंतामन जैन कम्पोदपुरा वाले असाठी तक.

पूर्व—चिंतामन राय से होते हुये मंगला कुशवाहा, ग्वाल बाबा से होते जुल्फू अहिरवार से होते हुये केंचू पटेल से होते हुये प्रभुदास ईसाई तक.

पश्चिम—पतुवां अहिरवार से गुटटे पटेल के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 11—हनुमान वार्ड

उत्तर—भैयन पटेल से छिंगा काढी तक.

दक्षिण—हजारी जैन के मकान से होते हुये हरिशंकर राय के मकान तक.

पूर्व—दुण्डी लुहार से आशाराम बछायात के मकान तक.

पश्चिम—पोस्ट ऑफिस से वरेठा बाबा एवं वरेठा बाबा से होते हुये उलुवा पटेल तक.

वार्ड क्रमांक 12—भगत सिंह वार्ड

उत्तर—लटोरा अहिरवार से दलसींगा अहिरवार तक.

दक्षिण—रामगोपाल साहू से पंप हाउस होते हुये निर्मल जैन के मकान तक.

पूर्व—प्रमोद जैन से हल्के काढी के मकान तक.

पश्चिम—विथा अहिरवार के मकान से भरोसा अहिरवार के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 13—अम्बेडकर वार्ड

उत्तर—युसुफ खॉन से नथू पटेल के मकान तक.

दक्षिण—दीपक राय से मकुंदा अहिरवार के मकान तक.

पूर्व—महेश साहू से मनोहर के मकान तक.

पश्चिम—पेट्रोल पंप से लल्लू पाण्डेय के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 14—रविदास वार्ड

उत्तर—विद्युत मंडल से मखवां होते शमशान सैड तक

दक्षिण—मजरा झिरियाखेरा धनी वासदेव के मकान से परमलाल के मकान से होते हुये बिहारी के मकान तक.

पूर्व—छिद्री अहिरवार के मकान से छुटटी के मकान तक.

पश्चिम—हजरिया के मकान से जगदीश सिंह के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 15—महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड

उत्तर—रुखुवा पटेल से होते हुये टिंकू साहू से होते हुये नदीखेरा तक.

दक्षिण—घुवारा का मजरा वंदियाखेरा पुन्ना के मकान से भोला काढी के मकान तक.

पूर्व—छुवारा का मजरा चौरसिया खेरा संपूर्ण।

पश्चिम—नथू सिंह के मकान से हल्कू अहिरबार के मकान तक।

मसूद अख्तर, कलेक्टर।

Chhatarpur, the 3rd April 2014

No. 100-SC 1/2014.—In exercise of the power conferred by the notification No. 4-520 XVIII-3-04, Dated 24th February 2004 of Urban Administration & Department of Government of Madhya Pradesh, I, Dr. Masood Akhtar, Collector, Distt. Chhatarpur, Madhya Pradesh under Section 29 (1) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) here by determine the extent of Words of Nagar Parishad Ghuwara, Distt. Chhatarpur as per Schedule below:—

SCHEDULE

Number and Name of the Wards

| Ward No. (1) | Name of Ward (2) |
|-----------------|---------------------------|
| 1 | Jagdeesh Swami Ward |
| 2 | Hardole Ward |
| 3 | Abar Devi Ward |
| 4 | Maharana Pratap Ward |
| 5 | Chandra Shekhar Azad Ward |
| 6 | Subhash Chandra Bose Ward |
| 7 | Gayatri Ward |
| 8 | Ambey Ward |
| 9 | Shankar Ward |
| 10 | Chhatrasal Ward |
| 11 | Hanuman Ward |
| 12 | Bhagat Singh Ward |
| 13 | Ambedkar Ward |
| 14 | Ravidas Ward |
| 15 | Maharani Laxmi Bai Ward |

Ward No. 1—Jagdeesh Swami Ward

North—Ramdas Jagdish Mandir.

South—New kuwan to the house of Ajjudi Dheemar.

East—From the bada talab Chauraha to house of the Jagat Rajak and house of the Rattan Rajak to house of the Parvat Raikwar.

West—Complate Majra lallan khera.

Ward No. 2—Hardol Ward

North—From the house of Baldev Kachhil to the house of Brijjal Namdev to the house of Bhagun Singh &

South—From the house of Laxman Luhar to ward Bhagun Singh to the house of Sariya Dheemar.

East—From the house of Babu Kumhar to house of the Jalma Raikwar.

West—From the house of Janaki Bai Prajapati to the house of Natthu Dheemar.

Ward No. 3—Abar Devi Ward

North—From the house of Ajuddya Dheemar to the house of Hardas Napit to the Bare Lal Kori.

South—From the house of Jujjan Sahu Chakki to house of the Jagdeesh Sahu.

East—From the house of Munna Kori to house of the Govindra Singh Lalla and Mohan Singh to house of the Komal Vishwakarma.

West—From the house Nathu Vishwakarma to house of Devendra Singh.

Ward No. 4—Maharana Pratap Ward

North—From of the house the Veer Singh to Waters Tanki.

South—From house the Murari Joshi to house of the Sukh Lal Joshi.

East—From of the house Arjun Sahu to house of the Anandi Sahu and house of the Veer Singh to house of the Satyanarayan Pandey.

West—From house the Dyachandra to house Kadoli Joshi and house of the Mahan Sahu to Masjid.

Ward No. 5—Chandra Shekhar Azad Ward

North—From house the Jawahar Jain to house of the Sheelchandra Jain.

South—From house of the Gulab Chandra Jain to house of the Kamata Prasad Jain and house of the Pursottam Sukla to house of the Setaram Asati.

East—From the house of Babu Lal Jain to Devi Temple.

West—From the house of Gyan Chandra Bed to Dharmendra Khare.

Ward No. 6—Subhash Chandra Bosh Ward

North—From the Bada Talab to house of the Duwarka Khare.

South—From the Bhagprakash Joshi to house of the Pyare Lal Joshi.

East—From the Dharmdas Napit to house of house of the Kundan Lal Tamrakar.

West—From the house Khuman Lodhi to Balgovindra Lodhi and house of the Juju Bunker to house of the Munna lal Khare,

Ward No. 7—Gayatri Ward

North—From the Chhiman Badai to house of the Narayan Das Khare.

South—From the Dhani ali to Swarup Chandra Jain and house of the Atul Jain to house of the Anandi Jain.

East—From the Rajput Teacher to Bare Rajak.

West—From the Binda Sahu to Sichai Colony and house of the Segar.

Ward No. 8—Ambe Ward

North—From the Hariram Sahu to the Pulice Chauki and house of the Ganeshi Raikwar.

South—From the Bhaiyan Raikwar to house of the Gunde Raikwar.

East—From the Mohan Raikwar to Kheri Bare Raikwar.

West—From the Udal Raikwar to house of the Balchandra.

Ward No. 9—Shankar Ward

North—From the Harishchandra Vishwakarma to the Collage.

South—From the Devinagar to house of the Raghuvar Sahu.

East—From the Khundu Sahu to house of house of the dausahav and the Foojdar Muhalla.

West—From the Collage to Devinagar.

Ward No. 10—Chhatravas Ward

North—From the Kanhyan Lal Khangar to house of the Lallu Asati.

South—From the Chantaman Jain to house of the house of the Kamodpura Bale Asati Ji.

East—From the Chintaman Rai to house of the Magla Kushwaha, From the Gwal Baba to house of the Kechu Patel and house of the Prabhudasi Ishai.

West—From Patua Ahirwar to house of the Gutte Patel.

Ward No. 11—Hanuman Ward

North—From the Bhaiyan Patel to Chhinga Patel.

South—From the Hajari Jain to house of the Harishankar Rai.

East—From of the Tundi Lohar to house of the Aasharam Bachyat.

West—From the Post Office to the Baretha Baba and house of the Thaluwa Patel.

Ward No. 12—Bhagat Singh Ward

North—From the Latora Ahirwar to house of the Dalseenga Ahirwar.

South—From the Khaman Lal Sahu to house of the Nirmal Jain.

East—From the Pramod Jain to house of the Halke Kachhi.

West—From the Vittha Ahirwar to Matola Ahirwar.

Ward No. 13—Ambedkar Ward

North—From the house Yusuf Khan to house of the Natthu Patel.

South—From the Deepak Rai to house of the Mukunda Ahirwar.

East—From the Mohan Sahu to house of the Manohar.

West—From the Patrol Pump to house of the Lallu Panday.

Ward No. 14—Ravidas Ward

North—From the Bidut Mandal to the Shamshan Shed.

South—From the Majar Jhiriyakhera to house of the Paramlal and house of the Vihari Lal.

East—From the Chhittu Ahirwar to house of the Chhuttu.

West—From the Hajariyan to house of the Jagdish.

Ward No. 15—Maharani Laxmi Bai Ward

North—From the Khumna Patel to Tinku Sahu and the Nadikhera.

South—From the Ghuwara Majara Badhiyan Khera to house of the Punna Kachhi to Bhola Kachhi.

East—From the Ghuwara Majra Chaurasiyan Khera complete.

West—From the Nathu Singh to house of the halku Ahirwar.

MASOOD AKHTAR, Collector.

छतरपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2014

क्र. 101-एस.सी. 1-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक-4-520-अठारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, डॉ. मसूद अख्तर, कलेक्टर, जिला छतरपुर, एटद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद, राजनगर, जिला छतरपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

अनुसूची

| वार्ड क्रमांक (1) | वार्ड का नाम (2) |
|----------------------|---------------------|
| 1 | सरदार भगत सिंह |
| 2 | संत रविदास |
| 3 | इन्दिरा गांधी |
| 4 | रानी लक्ष्मीबाई |
| 5 | लालबहादुर शास्त्री |
| 6 | भरत |
| 7 | डॉ. जाकिर हुसैन |
| 8 | हरिहर |
| 9 | महात्मा गांधी |
| 10 | सुभाष |
| 11 | शिवाजी |
| 12 | राजीव गांधी |

| (1) | (2) |
|-----|--------------|
| 13 | विश्वकर्मा |
| 14 | तिलक |
| 15 | डॉ. अम्बेडकर |

वार्ड विभाजन की सीमाएं

वार्ड क्रमांक 01—सरदार भगत सिंह वार्ड

उत्तर—एम. पी. ई. बी. कार्यालय से पहाड़ी के हनुमान मंदिर से होकर पंचम नामदेव, मदन नामदेव से रामस्वरूप गुप्ता के मकान तक.

पूर्व—रामस्वरूप गुप्ता के मकान से सत्संग भवन होकर राजकुमार तिवारी के मकान तक.

दक्षिण—राजकुमार तिवारी के मकान से रामस्वरूप ठेकेदार मकान से होकर पानी की टंकी तक.

पश्चिम—पानी की टंकी से गंज रोड होते हुये एम. पी. ई. बी. कार्यालय तक.

वार्ड क्रमांक 02—संत रविदास वार्ड

उत्तर—मनीराम हरिजन के मकान से सिंधई के मकान से होते हुये गुप्ता कन्डेक्टर के मकान से होकर लच्छू कुशवाहा के मकान तक.

पूर्व—लच्छू कुशवाहा के मकान के लल्लन बढ़ई के मकान से होकर मुन्ना अली के मकान से इमामी जोगी के मकान के

दक्षिण—मुन्ना अली के मकान से इमामी जोगी के मकान के कोने से राजाराम खटीक के मकान से होकर दिवाले के कोने तक.

पश्चिम—दिवाले के कोने से लेकर रामस्वरूप विश्वकर्मा के खण्डहर से होकर गोले लाल हरिजन के मकान से होते हुये मनीराम हरिजन के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 03—इन्दिरा गांधी वार्ड

उत्तर—चित्ते सोनी के गैरज के सामने से पीपल के पेड़ से होते हुये लालमन पटवारी के मकान तक.

पूर्व—लालमन पटवारी के मकान से भवगावन दास प्रजापति के मकान से गुलजारी लाल अनुरागी के मकान से होते हुये अशोक साहू के मकान तक.

दक्षिण—अशोक साहू के मकान से संतोष साहू के मकान से होते हुये हरशंकरी मंदिर के सामने टेलर्स के मकान तक.

पश्चिम—टेलर्स के मकान से शंकरजी के मंदिर से होकर विहारी लाल खटीक के मकान से नीम के पेड़ से होते हुये अवधेश खटीक के मकान से गंज रोड होते हुये अनन्ती कुशवाहा के कुआं से मंडी क्षेत्र होते हुये चित्ते सोनी के गैरज तक.

वार्ड क्रमांक 04—महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

उत्तर—शारदा खटीक के मकान से विन्दु जोगी के मकान से होते हुये जखीरा स्कूल से होकर निल्बू खाँन, ओमकार अग्निहोत्री के मकान से होकर कन्धेदी पाठक के बाड़े के राकेश मिश्रा के मकान तक.

पूर्व—राकेश मिश्रा के मकान से कृषि क्षेत्र के तुलसी काढी के कुआं से होते हुये छुट्टन खरे के कुआं तक.

दक्षिण—छुट्टन खरे के कुआं से कृषि क्षेत्र होते हुये गरू वाले महावीर से होकर रोड की पुलिया होते हुये नादुल माता मंदिर के आगे तक.

पश्चिम—नादुल माता मंदिर के आगे से बमनी खेरो पहाड़ी से होकर गंज रोड तिराहे से अवधेश खटीक के सामने से शारदा खटीक के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 05—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

उत्तर—बाजार चौराहे में चौरसिया मेडीकल स्टोर के राध-माधव मंदिर से होकर मिलन ढीमर, कल्लू जोशी के मकान से होते हुये पटैरिया जी की बगिया तक.

पूर्व—पटैरिया जी की बगिया से तहसील होकर गोकुल धाम से होते हुये रविन्द्र कॉलोनी तक.

दक्षिण—रविन्द्र कॉलोनी से आर.वी.एस. कॉलेज के पीछे से होकर भूरे लाल कुशवाहा के कुआं से होकर कृषि क्षेत्र होकर लखन लाल तिवारी के मकान तक.

पश्चिम—लखन लाल तिवारी के मकान से भनू सोनी के मकान होते हुये मैयादीन कुशवाहा के मकान से होकर चौरसिया मेडीकल तक.

वार्ड क्रमांक 06—भरत वार्ड

उत्तर—इब्राहीम मास्टर के कमान से कल्लू रंगेज रज्जन खरे के मकान से तालाब चौराहे से होकर शहीद बाबा की मजार तक.

पूर्व—शहीद बाबा की मजार से रेन्ज क्वार्टर, होते हुये सागौना क्वार्टर तक.

दक्षिण—सागौना क्वार्टर से गोरेलाल रैकवार के मकान से पठवा पूरा में पुंगा वाले साहू से होकर सामुदायिक भवन से मंत्री जी की चक्की तक.

पश्चिम—मंत्री जी की चक्की से मस्जिद से होकर इब्राहीम मास्टर के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 07—डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड

उत्तर—लक्ष्मनदास सेठ के प्लाट से श्यामले-जू के मकान से होते हुये कॉलोनी की तार फेसिंग से होकर लाल पुरवा तक.

पूर्व—लाल पुरवा से भटिया पुरवा होते हुये बरिया पुरवा तक.

दक्षिण—बरिया पुरवा से नायक जी के बन्धा होते हुये खजुराहो रोड पर नहर की पुलिया तक.

पश्चिम—नहर की पुलिया से बधवा वाले पम्प हाडस से होते हुये माता मंदिर होकर सत्ती की मिडिया से लक्ष्मनदास सेठ के प्लाट के कोने तक.

वार्ड क्रमांक 08—हरिहर वार्ड

उत्तर—डॉ. रसूल की दुकान से अली झाईवर के मकान होते हुये कृषि क्षेत्र होकर इमलया मोहल्ला तक.

पूर्व—इमलया मोहल्ला से धंधर तालाब, के आगे से गनी चच्चा के कुआं तक.

दक्षिण—गनी चच्चा के कुआं से दिलीप सिंह यादव के कुआं से होकर पेट्रोल पम्प तक.

पश्चिम—पेट्रोल पम्प से पशु चिकित्सालय होते हुये मनोज खरे की दुकानों से होकर स्टेट बैंक एटीएम होते संजय अग्रवाल की दुकान के आगे डॉ. रसूल की दुकान तक.

वार्ड क्रमांक 09—महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर—मोहन बाबू कुशवाहा के मकान से बछौन रोड होते हुये गौरी शंकर विश्वकर्मा के मकान से लखुरे देवी मंदिर तक.

पूर्व—लखुरे देवी मंदिर से कृषि क्षेत्र होते हुये जामा मस्जिद तक.

दक्षिण—जामा मस्जिद से बछौन रोड पर कल्लू अली के मकान तक.

पश्चिम—कल्लू अली के मकान से मुना माली के मकान होते हुये मोहन बाबू कुशवाहा के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 10—सुभाष वार्ड

उत्तर—महोबा रोड पर स्थित हकीम की मजार से कृषि क्षेत्र से होकर खांजा पुरवा होते हुये श्रावन पुरवा स्कूल तक.

पूर्व—श्रावन पुरवा स्कूल से छोटेलाल कुशवाहा के मकान से होकर गोकुलन बगीचा होते हुये हायर सेकेण्ड्री स्कूल तक.

दक्षिण—हायर सेकेण्ड्री से डॉ. पटेरिया क्लीनिक से पेट्रोल पम्प होते हुये रामबाग चौराहे पर नातीराजा की दुकानों तक.

पश्चिम—नाती राजा की दुकानों से बब्बू सेठ की हीरो होण्डा एजेन्सी से होते हुये महोबा रोड हकीम जी की मजार तक.

वार्ड क्रमांक 11—शिवाजी वार्ड

उत्तर—पुराने पोस्ट ऑफिस से पुराने ब्लाक से होकर बस स्टेण्ड पर स्थित बरिया के पेड़ तक.

पूर्व—बरिया के पेड़ से सोसायटी होते हुये गढ़ी स्कूल के सामने से होकर गोरे लाल बढ़ी तक.

दक्षिण—गोरे लाल बढ़ी के मकान से अनारी रैकवार, डॉ. अवध अवस्थी एवं गफुर मास्टर की चक्की से होते हुये रामचरन गुप्ता की दुकान तक.

पश्चिम—रामचरन गुप्ता की दुकान से कल्पना स्टॉडियो, महेन्द्र सिंह मास्टर के मकान से होते हुये पुराने पोस्ट ऑफिस तक.

वार्ड क्रमांक 12—राजीव गाँधी वार्ड

उत्तर—उद्दी जैन के मकान से अरविन्द नामदेव, गन्नी चच्चा के मकान से सहादत पेन्टर के मकान तक.

पूर्व—सहादत पेन्टर के मकान से दिनेश खरे, महेश सोनी की दुकानों से होकर बब्बू मास्टर, जैन मंदिर तक.

दक्षिण—जैन मंदिर की दुकान से जबाहर अग्रवाल के मकान से स्वतंत्र जैन, बड़े दा जैन, ग्यासी सोनी के मकान तक.

पश्चिम—ग्यासी सोनी के मकान से उद्दी जैन के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 13—विश्वकर्मा वार्ड

उत्तर—रामबाग चौराहे पर स्थित कुशवाहा धर्मशाला से बब्बू विश्वकर्मा की दुकान होते हुये थनेरा तालाब के कुआं तक.

पूर्व—थनेरा तालाब के कुआं से रामभरोसे माली, नजर बाग होते हुये महेश सोनी के प्लाट तक.

दक्षिण—महेश सोनी के प्लाट से राजाबाई सोनी, जुगल नाई से होकर राजेन्द्र अग्रवाल के मकान के आगे ताप्रकार का मकान, जगन्नाथ सोनी, किशोरी अहिरवार के मकान तक.

पश्चिम—किशोरी अहिरवार के मकान से परम कुशवाहा के मकान से मड़िया होते हुये जगदीश स्वीपर के मकान से चौपरा होकर रामबाग चौराहे तक.

वार्ड क्रमांक 14—तिलक वार्ड

उत्तर—रानीपुरा में श्रीराम तिवारी के मकान से कुरयाना मुहल्ला होते हुये कृषि क्षेत्र से होकर महोबा रोड ईदगाह तक.

पूर्व—ईदगाह से पुलिस थाना, रामबाग चौराहा, जनकपुरा होते हुये पावर हाउस तिराहे तक.

दक्षिण—पावर हाउस तिराहे से चित्ते हाउस के गैरज से होते हुये दुर्गा पाल के कुआं तक.

पश्चिम—दुर्गा पाल के कुआं से कृषि क्षेत्र होते हुये नगर परिषद् के पम्प हाउस से होकर श्रीराम तिवारी के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 15—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

उत्तर—पावर हाउस तिराहे से चौपरा के सामने से होकर पुरानी कलारी, रामकिशोर अग्रवाल का मकान, अहिरवार धर्मशाला, पवन जैन का मकान, संतोषी माता मंदिर तक.

पूर्व—संतोषी माता मंदिर से नामदेव मंदिर, छोटे मिठ्या की दुकान से होते हुये गोकुल सोनी की दुकान, अमीर चच्चा की दुकान से होते हुये कैलाश सोनी के मकान तक.

दक्षिण—कैलाश सोनी के मकान से वाले ममा, दिलीप सिंह यादव की दुकान, शंकर सेठ की दुकान, से छबीलाल यादव के मकान तक.

पश्चिम—छबीलाल यादव के मकान से मंदिर की सीढ़ियों से पहाड़ी से दूसरी तरफ पावर हाउस तिराहे तक.

मसूद अख्तर, कलेक्टर.

Chhatarpur, the 3rd April 2014

No. 101-S.C-1-14.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 4-520-XVIII-3-04, Dated 24th February, 2004 of Urban Administration & Development Department of Government of Madhya Pradesh, I, Dr. Masood Akhtar, Collector, Distt. Chhatarpur Madhya Pradesh under Section 29(1) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine the extent of Wards of Nagar Parishad Rajnagar, Distt. Chhatarpur as per Schedule below:—

SCHEDULE

Number and Name of the Wards

| Ward No. | Name of Wards |
|----------|---------------------|
| (1) | (2) |
| 1 | Sardar Bhagat Singh |
| 2 | Sant Ravidas |
| 3 | Indra Gandhi |
| 4 | Rani Laxmi Bai |
| 5 | Lal Bhadur Shastri |
| 6 | Bhart |
| 7 | Dr. Jakir Husain |
| 8 | Harihar |
| 9 | Mahatma Gandhi |
| 10 | Subhash |
| 11 | Shiwaji |
| 12 | Rajeev Gandhi |
| 13 | Vishwakarma |
| 14 | Tilak |
| 15 | Dr. Ambedkar |

Ward No. 1—Sardar Bhagat Singh Ward

North—From M.P.E.B. Office to Hill Hanuman Temple to Pancham Namdev to Ramshwroop Gupta's House til.

East—House of Ramshwroop Gupta to Satasang Bhavan to house of Rajkumar Tiwari til.

South—House of Rajkumar Tiwari to Ramswoop contractor towards Pani ki Tanki.

West—From Pani ki tanki to Gung road to office of MPEB til.

Ward No. 2—Sant Ravidas Ward

North—House of Maniram Harijan to house of Singhai towards house of Gupta Conductor to house Lachchhu Kushwaha.

East—House of Lachchhu Kushwaha to house of Lallan Badai to back of hosue of Munna Ali.

South—House of Munna Ali to and of house of Emami Jogi to Raja Ram Khatik house towards and of Diwale house.

West—Diwale house corner to shout house to house of Gore Lal harijan towards house of Maniram Harijan.

Ward No. 3—Indra Gandhi Ward

North—Front of Chitte Soni Garage to Tree of Pipal towards house of Lalman Patwari.

East—House of Lalman Patwari to house of Bhagbandas Prajapati, Guljari Lal Anuragi towards house of Ashok Sahu.

South—House of Ashok Sahu to house of Santosh Sahu and front of Harisnkri Temple to hosue of Tailor.

West—House of Tailor to Sankar ji temple to house of Bihari, Panna Lal Khatik to Tree of Nim towards house of Awdhesh Khatik or Gung road to well of Annati Kushwaha to mandi arounded to garage of Chitte Soni.

Ward No. 4—Rani Laxmi Bai Ward

North—From house of Sharda Khatik to house of Bindu Jogi to Jakhira School towards house of Nibbu Khan, Omkar Agnihotri house's

towards house of Kanchhedi Pathak and Rakesh Mishra's house.

East—House of Rakesh Mishra to Agriculture field in well of Tulshi Kachhi to well of Chhuttan Khare.

South—Well of Chhuttan Khare to Agriculture field to Garru mahaveer towards road culvert towards temple of Nadul Mata.

West—Temple of nadul mata towards hill of Bumni Khero to Gung road of front of Awdhesh Khatik to house of Sharda Khatik.

Ward No. 5—Lal Bahadur Shastri Ward

North—In Main Market Junction to Chorasiya Medical Stroe to Radhaw Madhaw Temple to house of Milan Dhimar, Kallu Josi house towards Garden of Pateriya Ji.

East—Garden of Pateriya ji to Tehsil of Gokul Dham towards Ravindra Colony.

South—From Ravindra Colony to RBS College behind to well of Bhure Lal Kushwaha to Agriculture filled to house of Lakan Lal Tiwari.

West—House of Lakan Lal Tiwari to house of Bhannu Soni towards house of Maiyadeen Kushwaha to Chorasiya Medical Store.

Ward No. 6—Bhart Ward

North—House of Ebrahim Master to house of Kallu Ranreg, Rajjan Khre to talab junction towards Mazar of Shahid baba.

East—From shahid baba mazar to range quarters.

South—Sagona quarters to Gore Lal Raikwar house to house of Punga Wala Sahu in Pathwapura to Community Bhavan to Mantri Jiki Chhakki.

West—From Mantria Ji ki Chhakki to Masjid to house Ebrahim Master.

Ward No. 07—Dr. Jakir Husain Ward

North—Plot of Laxmandas Seth to house of Shyameju to wire fencing of Colony to Lalpurwa.

East—Lalpurwa to Bhtiya Purwa towards Briya Purwa.

South—Briya Purwa towards Nayak Ji Bandha's on canal culvert of Khajuraho road.

West—Canal culvert to pump house to Mata Mandir towards Satti ki Madiya to plot of Laxmandas Seth.

Ward No. 08—Harihar Ward

North—Shop of Dr. Rasul to house of Ali Driver toward Agriculture field to Imalya Muhalla.

East—Imalya Muhalla to Dhandhar Talab, towards well of Gani Chacha.

South—Well of Gani Chacha to well of Dilip Singh Yadav to Petrol Pump.

West—Petrol Pump to Animal Hospital to shops of Manoj Khare to State Bank ATM to shop of Sanjay Agrawal towards shop of Dr. Rasul.

Ward No. 09—Mahatma Gandhi Ward

North—House of Mohan Babu Kushwaha to Bchhon road to house of Gori Sankar Viswakarma to Lakhure Devi Mandir.

East—Lakhure Devi Mandir towards Agriculture field to Jama Masjid.

South—Jama Masjid to Bchon road house of Kallu Ali.

West—House of Kallu Ali to house of Munna Ali to house of Mohan Babu Kushwaha.

Ward No. 10—Shubhas Ward

North—On Mahoba road Mazar of Hakim to Agriculture field towards Khanjapurwa to Sravan Purwa School.

East—Sravan Purwa School to house of Chhote Lal Kushwaha to Gokulan Bagicha towards H. S. School.

South—H. S. School to Clinic of Dr. Pateriya towards petrol pump to shops of Nati Raja on Rambag Junction.

West—Shops of Nati Raja to Hero Honda Agency of Babbu Seth to Mazar of Hakim on Mahoba road.

Ward No. 11—Shivaji Ward

North—From old post office to old block to tree of Bargad on bus stand.

East—Tree of Bargad to Society and front of Gahri School to house of Gore Lal Badhai.

South—House of Gore Lal Badhai to Anari Raikwar, Dr. Abadh Awashthi houses to Chakki of Gafoor Master to shop of Ramcharan Gupta.

West—Shop of Ramcharan Gupta Kalpana Studio, house of Mahendra Singh Master towards old post office.

Ward No. 12—Rajeev Gandhi Ward

North—House of Uddi Jain to houses of Arvind Namdev, Gani Chacha towards house of Shahadat painter.

East—House of Shahadat painter to house of Dinesh Khare, shops of Mahesh Soni to house of Babbu Master to Jain Mandir.

South—Shops of Jain Mandir to house of Jawahar Lal Agrawal to house of Swatantr Jain, Bdeda Jain, Gyasi Soni.

West—Gyasi Soni house of Uddi Jain house.

Ward No. 13—Vishwakarma Ward

North—Ram Bag Junction of Kushwaha Dharmasala to shop to Babbu Vishwakarma towards well of Thanera Talab.

East—Well of Tanera Talab to house of Ram Bharose Mali, Najar bag to plot of Mahesh Soni.

South—Plot of Mahesh Soni to houses of Raja Bai Soni, Jugal Nai, Rajendra Agrawal towards house of Tamrakar, Jagannath Soni, Kishori Ahirwar.

West—House of Kishori Ahirwar to house of Param Kushwaha to Madiya towards house of Jagdish Sweepal from front Chopra to Ram Bag Junction.

Ward No. 14—Tilak Ward

North—House of Shriram Tiwari in Ranipura to Kuryana Muhalla towards Agriculture field to Edgah on Mahoba road.

East—From Edgah to Police Station, Ram Bag Junction to Jankpura towards power house Tri-junction.

South—Power house Tri-junction to Garage of Chitte Soni to well of Durga Pal.

West—Well of Durga Pal towards Agriculture field to Tube wells of Nahag Parisad to house of Shri Ram Tiwari.

Ward No. 15—Ambedkar Ward

North—Power house Tri-junction to from of Chopra towards old Kalari to house of Ram Kishore Agrawal, Ahirwar Dharmasala, house of Pawan Jain to Santoshi Mata temple.

East—Santoshi Mata temple to Namdev temple to shop of Chhote Mithya towards shop of Gokul Soni, Amir Chacha and to house of Kailash Soni.

South—House of Kailash Soni to house of Bale Mamma, shops of Dilip Singh Yadav, Sankar Seth towards house of Chhabilal Yadav.

West—From house of Chhabilal Yadav towards steps of Hanuman Temple of hill beside power house Tri-junction.

छतरपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2014

क्र. 102-एस.सी.1-14.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्र. 4-520-अठारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, डॉ. मसूद अख्तर, कलेक्टर, जिला छतरपुर एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37, सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद्, लवकुशनगर, जिला छतरपुर के बार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

अनुसूची

| बार्ड क्रमांक | बार्ड का नाम |
|---------------|-----------------------------|
| (1) | (2) |
| 1 | लवकुश बार्ड |
| 2 | जवाहर लाल नेहरू बार्ड |
| 3 | भीमराव अम्बेडकर बार्ड |
| 4 | सुभाषचन्द्र बोस बार्ड |
| 5 | चन्द्र शेखर आजाद बार्ड |
| 6 | लाल बहादुर शास्त्री बार्ड |
| 7 | बाल गंगाधर तिलक बार्ड |
| 8 | महारानी लक्ष्मी बार्ड बार्ड |
| 9 | संत रविदास बार्ड |
| 10 | सरदार बल्लभ भाई पटेल बार्ड |
| 11 | माता बम्बर बैनी बार्ड |
| 12 | सरदार भगत सिंह बार्ड |
| 13 | महाराणा प्रताप बार्ड |
| 14 | संजय गांधी बार्ड |
| 15 | महात्मा गांधी बार्ड |

बार्ड विभाजन की सीमाएं

बार्ड नं. 01—लवकुश बार्ड

उत्तर—लवकुशनगर से महोबा रोड पर फुलान बाबा की पुलिया से सिद्धान्त पहाड़ के नीचे की बसाहट सिद्धान्त रास्ता में भोला काढ़ी के मकान तक.

पूर्व—भोला काढ़ी के मकान से पहाड़ी नाला के पश्चिमी किनारा की बसाहट लेते हुए भवानीदीन अहिरवार के मकान की (बी. आर. सी. की पुलिया तक).

दक्षिण—भवानीदीन अहिरवार के मकान से पुलिस क्वार्टर होते हुए सम्पूर्ण विधायक कालोनी मुन्ना निगम के मकान तक तथा महोबा मुख्य सड़क में बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल के सामने स्थित सुरेश खरे के शासकीय क्वार्टर तक.

पश्चिम—सुरेश खरे के शासकीय क्वार्टर से तहसीलदार बंगला होते हुए सम्पूर्ण सिविल लाइन गंधर्व कालोनी लेते हुए एस.डी.एम. बंगला के पीछे की सम्पूर्ण नई बसाहट, लवकुशनगर महोबा मुख्य सड़क में बनी फुलान बाबा की पुलिया तक.

बार्ड नं. 02—जवाहर लाल नेहरू बार्ड

उत्तर—सिद्धान्त रास्ता में धनीराम बसोर के मकान से रास्ता के दोनों ओर की बसाहट लेते हुए एवं आरामशीन लेते हुए राजा अहिरवार के मकान तक रामकुमार प्रजापति के मकान से होते हुए केश कुमार पंडित के मकान तक तथा इम्मा खां के मकान का दक्षिणी किनारा लेते हुए कोहिनूर के मकान तक.

पूर्व—राजा अहिरवार के मकान से सोसायटी होते हुए बंजरंग मुहाल तक.

दक्षिण—लवकुशनगर चन्दला मुख्य मार्ग में नये बस स्टेण्ड से चलते हुए वेयरहाऊस के पीछे की बसाहट, संतोषी माता मंदिर की पूरी बसाहट लेते हुए पुराने बस स्टेण्ड में स्थित संकट मोचन मंदिर तक.

पश्चिम—पुराने बस स्टेण्ड संकट मोचन मंदिर से लवकुशनगर महोबा मुख्य सड़क में अस्पताल परिसर, रेन्ज परिसर एवं रामदास नागर का मान लेते हुए बी. आर. सी. वायरलेस प्लाइन्ट परिसर से मान खां के मकान तक. एवं बकरीदीन के मकान से हल्के अहोर के प्लॉट की सम्पूर्ण बसाहट.

बार्ड नं. 03—भीमराव अम्बेडकर बार्ड

उत्तर—झूमर तालाब से गुढ़ा रोड लवकुशनगर के दोनों तरफ की बसाहट लेते हुए झूमर की सम्पूर्ण बसाहट एवं सिंचाई कालोनी.

पूर्व—बसानाला से उत्तरी किनारा लेते हुए मनीष सोनी के मकान से होते हुए जगदीश खरे के गुढ़ा रोड पर स्थित मकान तक.

दक्षिण—सिंचाई कालोनी एवं प्रजापति मुहाल की सम्पूर्ण बसाहट.

पश्चिम—कमलाकान्त की आरामशीन से जाटव मुहाल एवं विद्युत सब-स्टेशन तक एवं हबीब मुसलमान के मकान से परसराम गुसा के मकान तक तथा रास्ता की दूसरी ओर संतोष बाजपेयी के मकान से सूरज बेलदार के मकान तक.

वार्ड नं. 04—सुभाष चन्द्र बोस वार्ड

उत्तर—शौकत के मकान से लवकुशनगर चन्दला मार्ग के दक्षिणी किनारे की सम्पूर्ण बसाहट लेते हुए साहब सिंह के मकान तक.

पूर्व—साहब सिंह के मकान से देवपुर मजरा कालोनी की सम्पूर्ण बसाहट लेते हुए बसहा नाला तक.

दक्षिण—लवकुशनगर-चन्दला मुख्य मार्ग से शमशान घाट की ओर जाने वाली रास्ता के दोनों तरफ की बसाहट लेते हुए महेश तिवारी के मकान तक.

पश्चिम—रामस्वरूप पाठक के मकान से लवकुशनगर-छतरपुर रोड का पूर्वी किनारा लेते हुए कामता उपाध्याय के मकान तक तथा सुककी काढ़ी की चक्की से नीचे वाली रास्ता दोनों ओर के मकान लेते हुए प्रेम चन्द्र उर्फ निनी जैन के मकान तक.

वार्ड नं. 05—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

उत्तर—खुमान काढ़ी के मकान से महेश्वरीदीन तिवारी (नाना) के मकान तक एवं छतरपुर रोड मुख्य सड़क से कामता प्रसाद चतुर्वेदी का मकान लेते हुए नीरज द्विवेदी के मकान तक.

पूर्व—नीरज द्विवेदी के मकान से दिनेश रिखारिया की कोठी तक.

दक्षिण—तालाब मान सागर में स्थित बैजनाथ ढीमर के मकान से बस्ती की ओर कजरिया चौक से चतुरेश के मकान तक.

पश्चिम—चतुरेश चौरसिया के मकान से लिडवासुर पहाड़ के नीचे मुन्नी लाल शर्मा के मकान तक एवं मुख्य सड़क मुन्नी लाल शर्मा के मकान से सड़क का पूर्वी किनारा लेते हुए नीरज द्विवेदी तक.

वार्ड नं. 06—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

उत्तर—लवकुशनगर-छतरपुर मुख्य मार्ग पर स्थित बृज किशोर शर्मा के मकान से चौरसिया मुहल्ला, अशोक दुबे की अर्थाई होते हुए कजरिया चौक से सीताराम यादव के मकान तक एवं रवि पंडित का मकान लेते हुए तालाब मार्ग में रज्जू बाबा के मकान तक.

पूर्व—शंकर जी के मंदिर से लगा हुआ धमू चौरसिया के मकान से राजेन्द्र चौरसिया का मकान लेते हुए रामकली चौरसिया के मकान तक एवं रामकली चौरसिया के मकान से बद्री चौरसिया के पास कुंआ तक तथा अशोक चौरसिया चक्की वाले के मकान से रिपटा चौराहा की ओर रामेश्वर दयाल चौरसिया के कुंआ वाले मकान से अशोक चौरसिया के मकान तक तथा गौरीशंकर चौरसिया से राजापुरवा रास्ता में रत्न चौरसिया का मकान लेते हुए राजू चौरसिया के मकान तक.

दक्षिण—अशोक दुबे की अर्थाई से रिपटा की ओर जाने वाली रास्ता का उत्तरी किनारा लेते हुए रिपटा चौराहा रामगोपाल गुप्ता के मकान तक.

पश्चिम—रिपटा चौराहा रामगोपाल गुप्ता के मकान से खोड़न तक का सम्पूर्ण बसाहट

वार्ड नं. 07—बाल गंगाधर तिलक वार्ड

उत्तर—रामकृपाल गुप्ता के मकान से दक्षिण की ओर शोकत मुहम्मद के मकान तक.

दक्षिण—शोकत मुहम्मद के मकान से हरिजन समाज भवन होते हुए सम्पूर्ण कैथी मुहाल सम्पूर्ण सुरकुरु मुहाल लेते हुए दयाली कोरी के मकान तक.

पूर्व—तुलसीदास जी के मंदिर से अशोक चौरसिया के मकान तक.

पश्चिम—रामेश्वर दयाल चौरसिया के स्कूल से उत्तर की ओर रमजू मुसलमान की दुकान तक.

वार्ड नं. 08—महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड

उत्तर—राममिलन पटेल के मकान से विश्वनाथ पटेल के मकान तक.

पूर्व—विश्वनाथ पटेल के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए पूरन बढ़ई के मकान तक.

दक्षिण—पूरन बढ़ई के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए हुकुम चन्द्र बसोर के मकान तक.

पश्चिम—हुकुम चन्द्र बसोर के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए गया प्रसाद के मकान से होते हुए राममिलन पटेल के मकान तक.

वार्ड नं. 09—संत रविदास वार्ड

उत्तर—रमजू मुसलमान की साइकिल दुकान से छतरपुर रोड लेते हुए बरानियां मंदिर उत्तर से दक्षिण की ओर न्यायालय परिसर तहसील परिसर नगर परिषद के पम्प हाउस तक रोड की दूसरी तरफ इन्द्रजीत राजपूत के मकान से उत्तर दिशा लेते हुए रहनिया चौराहा तक.

पूर्व—मीठी कुइया अकटौहां रोड पर गनपति सिंह के मकान को लेते हुए मुना मुसलमान के मकान तक.

दक्षिण—रहनिया चौराहा से लाले कुशवाहा के मकान लेते हुए सम्पूर्ण छोटा एवं बड़ा सिंगवापुरवा तक.

पश्चिम—कल्लू कुशवाहा के मकान से जगतराज कनबजिया की ओर जाने वाली रास्ता जगदीश प्रसाद निगम के मकान तक एवं हक्की खटीक के मकान से हनुमान मंदिर स्कूल को लेते हुए इस्माइल मुसलमान के मकान से होते हुए हनुमान प्रसाद निगम की बगिया तक.

वार्ड नं. 10—सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड

उत्तर—अयोध्या अहिरवार के मकान से सन्त रविदास मंदिर तक.

दक्षिण—सन्त रविदास के मंदिर से रामस्वरूप विश्वकर्मा के मकान तक.

पूर्व—रामस्वरूप विश्वकर्मा के मकान के पश्चिम की ओर तिजवा अहिरवार का मकान लेते हुए पश्चिम की ओर भुजबल विश्वकर्मा का मकान लेते हुए कृष्णा शर्मा के मकान होते हुए पहाड़ के नीचे-नीचे सरताज अली के मकान तक.

पश्चिम—सरताज अली के मकान से ठाकुरदीन कोरी के मकान होते हुए पहाड़ के नीचे की सम्पूर्ण बसाहट नन्दकिशोर विश्वकर्मा का मकान लेते हुए शंकर सेन के मकान तक.

वार्ड नं. 11—माता बम्बर बैनी वार्ड

उत्तर—नगर परिषद के सांस्कृतिक भवन से पुराना पुलिस थाना लेते हुए पुराने उप पंजीयक कार्यालय के बाडे के गेट तक.

पूर्व—पुराने उप पंजीयक कार्यालय के बाडे के गेट से

लवकुशनगर छतरपुर के मार्ग का पश्चिमी किनारा लेते हुए लवकुश मंदिर राम सेवक बरानियां के मकान से होते हुए रामनारायण सोनी के मकान तक तथा खुनू साहू के मकान से होते हुए जागेश्वर गुप्ता का मकान लेते हुए लक्ष्मन अहिरवार के मकान तक.

दक्षिण—रामनारायण सोनी के मकान से रामगोपाल गुप्ता के मकान लेते हुए बम्बर बैनी के पहाड़ी की तलहटी लेते हुए खुनू साहू के मकान के पीछे तक.

पश्चिम—खुनू साहू के मकान के पीछे से बम्बर बैनी की पहाड़ी की तलहटी लेते हुए प्राथमिक पाठशाला बजरंगगढ़ नगर परिषद सांस्कृतिक भवन तक.

वार्ड नं. 12—सरदार भगत सिंह वार्ड

उत्तर—दुर्गा दीक्षित के मकान से (बनाफर मोहल्ला) बद्री दीक्षित के मकान को लेते हुए निगमों की कुइया से लखन निगम का मकान होते हुये रास्ते के दोनों ओर के मकान लेते हुए अंकेश सोनी के मकान से लवकुशनगर-छतरपुर मार्ग के पश्चिमी किनारे की आबादी लेते हुये पुराने बस स्टेप्ड से महोबा रोड पर जागेश्वर गुप्ता के मकान तक.

पूर्व—अंकेश सोनी के मकान से लवकुशनगर-छतरपुर मुख्य सड़क की पश्चिमी किनारे की आबादी लेते हुए परमानन्द गुप्ता के मकान तक.

दक्षिण—परमानन्द गुप्ता के मकान से बनाफर मोहल्ला की रास्ता के दोनों ओर के मकान लेते हुए चन्द्रभान यादव एवं जग प्रसाद यादव के मकान तक.

पश्चिम—जग प्रसाद यादव के मकान से अनवार खान का मकान लेते हुए बम्बर बैनी पहाड़ी की तलहटी के नीचे-नीचे दुर्गा दीक्षित के मकान तक.

वार्ड नं. 13—महाराणा प्रताप वार्ड

उत्तर—धूवराम द्विवेदी के मकान लेते हुए जुगल किशोर राय के मकान तक.

दक्षिण—बहोरी राय के मकान से विन्दा श्रीवास का मकान लेते हुए सूरज पाल श्रीवास के मकान तक.

पश्चिम—महादेव श्रीवास के मकान से रास्ता के दूसरी ओर बम्बर बैनी माता पहाड़ के नीचे लूला यादव का

मकान लेते हुए पूर्व की ओर प्रतिपाल दीक्षित के मकान तक.

पूर्व।—प्रमोद दीक्षित के मकान से लक्ष्मनराय के मकान होते हुए बीहर की सम्पूर्ण बसाहट लेते हुए प्रकाश अवस्थी की बाउन्ड्री से भागचरण बेलदार की चक्की तक.

वार्ड नं. 14—संजय गांधी वार्ड

उत्तर—चुनूवाद बिहरा के मकान से कपूर चन्द्र जैन का मकान होते हुए जगप्रसाद यादव के मकान की रास्ता के दोनों ओर के मकान लेते हुए नाथराम बसोर के मकान तक एवं भवानीदीन बसोर के मकान से गुलाब सिंह राय का मकान लेते हुए चन्दन कोरी के मकान तक.

दक्षिण—द्रगपाल राजपूत के मकान से हलउवा प्राथमिक पाठशाला स्कूल तक.

पूर्व—लल्लू श्रीवास के मकान की रास्ता के दूसरी तरफ लेते हुए ओमकार राय का मकान लेते हुए दरियाब सिंह के मकान तक, एवं बरैयन वाले पंडित के मकान से रसीद खां के मकान तक. रमेश पटवा का मकान लेते हुए यादव के मकान तक की सम्पूर्ण बसाहट.

पश्चिम—भवानीदीन बसोर के मकान से गुलाब सिंह राय का मकान लेते हुये चन्दन कोरी के मकान तक.

वार्ड नं. 15—महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर—जेल परिसर से जेल के समस्त क्वार्टर लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की कालोनी की सम्पूर्ण बसाहट लेते हुए श्री हरिओम अवस्थी के मकान (झिन के महाबीर मंदिर) तक.

पूर्व—झिन के महाबीर के मंदिर से महोबा मुख्य मार्ग का पश्चिमी किनारा लेते हुए मल्लू मुसलमान के मकान तक.

दक्षिण—मल्लू मिस्त्री के मकान से रमाकान्त चतुर्वेदी का मकान लेते हुए भागवत प्रसाद गुप्ता के मकान से रास्ता के दोनों ओर के मकान लेते हुए तलईया मुहाल की ओर की सम्पूर्ण बसाहट.

पश्चिम—भगवानदास पटवा के मकान की रास्ता का पूर्वी

किनारा लेते हुए मलखान अहिरवार के मकान तक तथा रास्ता के दूसरी ओर घप्पु अहिरवार के मकान से बालकिशन बाल्मीकी का मकान लेते हुए दोनों ओर की सम्पूर्ण बसाहट संकट मोचन मंदिर पहाड़ी के नीचे वाले आखरी मकान कन्हैयालाल के मकान तक एवं कमलेश रैकवार के मकान को लेते हुये रमेश गुप्ता का मकान होते हुए प्रेमचन्द्र गुप्ता के मकान से शमीमा के मकान तक.

मसूद अख्तर, कलेक्टर.

Chhatarpur, the 3rd April 2014

No. 102-SC-14.—In exercise of the power conferred by the notification No. 4-520-XVIII-3-04, Dated 24 February 2004 of Urban Administration & Development Department of Government of Madhya Pradesh. Dr. Masood Akhtar Collector, Distt.- Chhatarpur M.P. Under Section 29 (1) of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) here by determine the extent of Wards of Nagar Parisad Lavkush Nagar, Distt.-Chhatarpur as per Schedule below.

SCHEDULE

NUMBER AND NAME OF THEWARDS

| Ward No. | Name of Ward |
|----------|--------------------------------|
| (1) | (2) |
| 1. | Lavkush Ward |
| 2. | Jawaharlal Nehru Ward |
| 3. | Bheemraw Ambedkar Ward |
| 4. | Subhash chandra bose Ward |
| 5. | Chandra shekhar Ward |
| 6. | Lal bahadur shastri Ward |
| 7. | Balgangadhar tilak ward |
| 8. | Maharani Laxmi Bai ward |
| 9. | Sant Ravi dash ward |
| 10. | Sardar Ballabh Bhai Patel Ward |
| 11. | Mata Bambar Baini Ward |
| 12. | Sardar Bhagat singh Ward |
| 13. | Maharana Pratap Ward |
| 14. | Sanjay Gandhi ward |
| 15. | Mahatma Gandhi ward |

Ward Bibhajan Boundary**Ward Number 01—Lavkush Ward**

North—Lavkush nagar to Mahoba road on the Puliya of Fulan Baba and down of the Siddhan hill till the house of Bhola kachhi.

East—To the house of Bhola Kachhi from the brocklet (Nala) of hill till the house of Bhawanideen Ahirwar (The puliya of B.R.C.)

South—From the house of Bhawanideen Ahirwar to Quarter of police colony and the whole M.L.A. colony till the house of Munna Nigam and main road of Mahoba road in front of Govt. Ex. school to Govt. Quarter of Mr. Seresh khare.

West—From the Govt. Quarter of Suresh khare to Benglow and the whole Civil Line Gadhariv colony and the S.D.M. Benglow'S behind and New colony Lavkush nagar main road till the canstruced puliya of Fulan Baba.

Ward Number 02—Jawaharlal Nehru Ward

North—The Road of siddhan, the Both Side of the house of Dhaniram Basor and the house of Raja Ahirwar. From the house of Ram kumar Prajapati and to the house of kesh kumar pandit and the south side of Imma Khan'S house to Kohinoor colony.

East—Betbeen the house of Raja Ahirwar and Society till the Bajrang Muhal.

South—The new bus Stand in the main road of Lavkush nagar Chandla road to the behind of Vore house and the whole area of the temple of Santosi mata to old Bus stand till the temple of Sankat Mochan.

West—From the temple of Sankat mochan and main Mahoba road with the Campus of Hospital, the Range Campus and the house of Ramdas nagar to B.R.C wirless point Campus till the house of Man khan and the house of Bakredan to the plat of Halke Aheer.

Ward Number 03—Bheemraw Ambedkar Ward

North—Both side of the pond of Jhoomar to road of Gudha and the whole irrigation colony.

East—The north side of Basanala to the house of Manish Soni and the house of Jagdeesh Khare on the road of Gurha.

South—Irrigation colony and the whole area of Prajapati Muhal.

West—The Aremachire of Kamla Kant to Jatav Muhal and Electric sub Station and the house of Habub Musalman to the house of Parasram Gupta and other side to the house of Santosh Bajpai and Sooraj Beldar.

Ward Number 04—Subhash Chandra Bose Ward

North—From the house of Saukat to south side of the area till the house of Sahab Singh.

East—From the house of sahab singh to Devpur Majra colony to Basa Nala.

South—Bet been the main road of Lavkush Nagar to Chandla to ward the Samsan Ghat and both side of the house of Mahesh Tiwari.

West—From the house of Ramswaroop Pathak and east side of the road Lavkush Nagar to Chhatarpur till the house of Kamta Upadhayay and the down side of the Chakki of Sukki Kachhi and Both side of prem channdra and Ninni Jain .

Ward Number 05—Chandra Shekhar Ward

North—From the house of Khuman kacchi till the house of Maheswari Nana and Main road Chhatarpur to the house of Kamta Chaturvedi till the house of Neeraj Dwivedi.

East—From the house of Neeraj dwivedi till the Kothi of Dinesh Richhariya.

South—The house of Baijnath Deemar situated in the Man Sagar Pond toward Kajaliya Chauk to the house of Chaturesh.

West—From the house Chatures Chaurasiya and under the hill of Lidvasur and the house of Munni La1 sharma and main road in front of Munni La1 Sharma eastern side of the house of Neeraj Dwivedi.

Ward Number 06—Lal Bahadur Shastri Ward

North—The house of Biraj Kishor Sharma situated in main road Lavkush Nagar to Chhatarpur and the house of Ashok Dubey and Kagaliya Chauk to Sitaram's house and the house of Ravi Pandit and the house of Rajjoo Baba in read of talab.

East—The house of Dhamma Chaurasia hereby the temple of Sankar Ji to the house of Rajendra Chaurasia till the house and of Ramkali and from the house of Ramkali to hear well of Badri chaurasia and Ashok Chaurasia's (Chakia Wale) house to R. D. Chaurasia's house hear the well till the house of Ashok Chaurasia and Gaurishankar Chaurasiya to the read of Rajapwwa and between the house of Rattan and Raja Chaurasia.

South—The read gain on Ripta Chauraha hear Ashok Dubey and north side of Ripta Chauraha till north side of Ripta Chauraha till the house of Ramgopal Gupta.

West—The whole area between Ripta Chauraha's Ramgopal house to the read of Khodon.

Ward No. 07—Balgangadhar Tilak Ward

North—South side of the house of Ramkripal Gupta Saukat Mohammad's house.

South—From the house of Saukat Mohammad to Harijan Society building to whole Kanthi Muhal and Surkaru Muhal to Dyali Kori.

East—The Temple of Tulsidas to the house of Ashok Chaurasia.

West—The North side from the house of Rameshwar Dayal's School to the shop of Ramju Musalman.

Ward No. 08—Maharani Laxmi Bai Ward

North—Between the house of Rammilan Patel and Vishwnath Patel.

East—South side of the house of Rammilan Patel to the house of Pooran.

South—Hust side of the house of Pooran to the house of Hukum Chandra Basor.

West—North side of the house of Hukum Chandra Basor to the house of Bya Prasad till the house of Ram Milan Patel.

Ward No. 09—Sant Ravi Das Ward

North—The shop of cycle of Ramju Musalman in Chhatarpur Road to Baraniya Temple and north to south of the Civil Court and campus of tehsil and Nagar Parishad's Pump house and other side the north direction of Indrajeet Rajpoot's house to Rahuniya Chauraha.

East—The Meethi Kuiyan on the road of Aktoha the and house of Ganpat Singh to the house of Munna Musalman.

South—Rahuniyan chauraha to the house of Lale Kushwaha and whole area of chhota and bada sigwa purwa.

West—The road towards to the house of kallo Kushwaha and Jagat Kanbajiya and road of Jagdeesh Prasad Nigam and the from the house of Hakki Khateek to the around the Temple of Hanuman Mandir and School to the house of Ismile Musalman till the Bagiya of Hanuman Prasad Nigam.

Ward Number 10—Sardar Ballabh Bhai Patel Ward

North—From the house of Ayodhya Ahirwar to the temple of Sant Ravi Das.

East—From the temple of Sant Ravidas to the house of Ram Swaroop Vishwakarma.

South—From the house of Ram Swaroop Vishwakarma in west corner toward Tejwa Ahirwar's house and west side of the house of Bhujwal Vishwakarma and under the hill of Krishna Sharma's house till Sartaj Ali's house.

West—From the house of Sartaj Ali and Takurdeen Kori and under the hill and whole area around the Nand Kishor Vishwakarma till the house of Shanker Sen.

Ward Number 11—Mata Bambar Baini Ward

North—The cultural building of Nagar Parishad and Old Police Station to Sub Registrar Office's Gate.

East—Old Sub Registrar office's Gate to the road of Lavkush Nagar to Chhatarpur, west corner of Ram Sewak Baraniya to Ram Narayan Soni and the house of Khunnoo Sahu and Jageswar Gupta till the house of Laxman Ahirwar.

South—From the house of Ramnarayan Soni to the house of Ram Gopal Gupta and the hill of mata Bambar Beni and beneath the till behind the house of Khunnoo Sahu.

West—Behind the house of Khunnoo Sahu and hill of Bamber Beni to Primary School Bajrang Grah of Nagar Parisad's cultural building.

Ward Number 12—Sardar Bhagat Singh Ward

North—From the house of Durga Dixit beside Badri Dixit's house and around the kuiyan of nigam and the house of Lakhan nigam to both side of the road till the house of Ankesh soni and the road of Lavkush nagar to Chhatarpur west side population and old Bus stand to the house of Jageswar Gupta on the Mahoba road.

East—From the house of Ankesh soni and main road Lavkush Nagar to Chhatarpur west corner's population to the house of Parma Nand Gupta.

South—The Both side of the road Banafar Muhal from the house of Parmanand Gupta to Chandra Bhan Yadav and Jag Prasad Yadav's house.

West—From the house of Jag Prasad Yadav to the house of Anwar Khan to the be neathe side of Bamber Beni till the house of Durga Dixit.

Ward Number 13—Maharana Pratap Ward

North—From the house of Drubram Dwivedi to the house of Jugal Kishor Rai.

East—From the house of Bahori Rai and Vinda Sriwas to the house of Sooraj Pal Sriwas.

South—The other side of the house of Mahadev Sriwas and the under the hill of Bamber Beni to the house of Loola Yadav and eastern side of the house of Pratipal Dixit.

West—From the house of Pramod Dixit and Laxman Rai to whole area of the Beehar around the house of Prakash Awasthi and boundary wall to the Chakki of Bhag Charan Beldar.

Ward No. 14—Sanjay Gandhi Ward

North—From the house of Chunulaal Birha and Kapoor Chandra Jain along with Jagprasad Yadav and both side of the rood of the house Nathuran Basor and the house of Bhawnideen Basor to the house of Gulab Singh Rai till the house of Chandan Kori.

East—The other side of the house of Lallo Riwas to the house of bareyan wale Pandit and the house of Rashid Khan and between the house of Ramesh Patwa. Whole area till the house of Yadav.

South—From the house of Bhawanideen basor and Gupta Singh Rai to the house of Chandan Kori.

West—From the house of Dragpal Rajpoot to Primary School of Hallaua.

Ward No. 15—Mahatma Gandhi Ward

North—The campus of Jail and all the quarten of Jail employee and the colony of health department. The whole area around the Hariom Awasthi (till the temple of Jhhinan Mahaveer)

East—To Jhhinnan Mahaveer temple and main rood Lavkush Nagar to Mahoba and west corner to the house of Mulloo Musalman.

South—Between the house of Mulloo Mishra to Ramakant Chaturvedi both road side of to the house of Bhagwat Prasad Gupta and whole area of Talaiya Muhal.

West—Eastern side of the house of Bhagwan das Patwa and the house of Malkhan Ahirwar and the other side of the road from the house of Balkishan Balmiki and bath side of whole area Sankat Mochan temple and under area till the last house of Kanahiya lal and the house of Kamlesh Raikwar and the house of Ramesh Gupta and house of Premchandra Gupta till the house of Sammema.

MASOOD AKHTAR, Collector.

छतरपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2014

क्र. 103-एस.सी.1-14.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्र. 4-520-अठारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी, 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए,

मैं, डॉ. मसूद अख्तर, कलेक्टर, जिला छतरपुर एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37, सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद्, हरपालपुर, जिला छतरपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ।—

अनुसूची

| वार्ड क्रमांक (1) | वार्ड का नाम (2) |
|----------------------|---------------------|
| 1 | विनोबा वार्ड |
| 2 | अम्बेडकर वार्ड |
| 3 | मुखर्जी वार्ड |
| 4 | हरिहर वार्ड |
| 5 | लोहिया वार्ड |
| 6 | नेहरू वार्ड |
| 7 | लक्ष्मी वार्ड |
| 8 | रघुराजगंज वार्ड |
| 9 | राजीव गांधी वार्ड |
| 10 | सरस्वती वार्ड |
| 11 | दुर्गा वार्ड |
| 12 | श्रीराम वार्ड |
| 13 | सुभाष वार्ड |
| 14 | इन्द्रा वार्ड |
| 15 | महात्मा गांधी वार्ड |

वार्डों की सीमाओं का वितरण

वार्ड नं. 01—विनोबा वार्ड

उत्तर—शासकीय महाविद्यालय से एफ. सी. आई. गोदाम को लेते हुए तोड़ी का सम्पूर्ण भाग को लेते हुए कृषि उपज मंडी के बेयर हाउस तक।

दक्षिण—शुगर मिल सरसेड़ मार्ग से हरीहर कुटी बेयर हाउस को लेते हुए कृषि उपज मंडी के सामने वाले ट्रान्सफार्मर तक।

पश्चिम—शासकीय महाविद्यालय से एफ. सी. आई. गोदाम को लेते हुए शुगर मिल सरसेड़ मार्ग तक।

पूर्व—कृषि उपज मंडी बेयर हाउस से झल्लू महाराज के सामने वाले मकान को लेते हुये, ठाकुरदास अहिरवार की दुकानों को लेते हुये लहछुरा रोड की उस तरफ वाली बस्ती सहित।

वार्ड नं. 02—अम्बेडकर वार्ड

उत्तर—मंडी बेयर हाउस से सुरेश त्रिपाठी के मकान को लेते हुये काकुनपुरा रोड तक।

दक्षिण—संतोष कुमार गुप्ता खरेला वाले के मकान से अस्पताल को लेते हुये नगर पंचायत की दुकानों सहित राठ रोड तक।

पश्चिम—ट्रान्सफार्मर संतोष गुप्ता खरेला वाले के मकान से झल्लू महाराज के मकान को लेते हुये मंडी बेयर हाउस तक।

पूर्व—राठ रोड नगर पंचायत की दुकानों से काकुनपुरा रोड की अस्पताल की बस्ती को लेते हुये मंदिर चबूतरा को लेते हुये मंत्री कालोनी को शामिल कर भानप्रताप विश्वकर्मा के मकान तक।

वार्ड नं. 03—मुखर्जी वार्ड

उत्तर—वीरेन्द्र राजपूत के मकान से निर्मित मंदिर को लेते हुये शमशानघाट को सम्मिलित करते हुये हरदयाल स्कूल तक।

दक्षिण—मंदिर चबूतरा को लेते हुये छोटेलाल शर्मा की दुकानों तक।

पश्चिम—मंदिर चबूतरा को लेते हुए अड़जरिया कालोनी की बस्ती को लेते हुए वीरेन्द्र राजपूत काकुनपुरा रोड तक।

पूर्व—छोटेलाल शर्मा की दुकानों से मुनालाल विश्वकर्मा एवं शमशान घाट को सम्मिलित करते हुए हरदयाल स्कूल तक।

वार्ड नं. 04—हरीहर वार्ड

उत्तर—राठ रोड पर प्रागीलाल साहू के मकान को लेते हुये पुरानी आइस फैक्ट्री का एसिया सम्मिलित करते हुये घोड़ा ठोकर तक।

दक्षिण—रेल्वे फाटक को लेते हुये माल गोदाम से घोड़ा ठोकर तक।

पश्चिम—रेल्वे फाटक की चौकी से शिवराम सोनी राठ रोड के दायें तरफ की बस्ती को लेते हुये प्रागीलाल साहू के मकान को लेते हुये शमशान घाट के सामने तक।

पूर्व— पंचमलाल रिछरिया की पीछे वाली बस्ती को लेते हुये माल गोदाम को सम्मिलित करते हुये रेल्वे सिग्नल तक.

वार्ड नं. 05—लोहिया वार्ड

उत्तर— संजय अग्रवाल मिठाई वाले के मकान से कालीचरण हरिजन के मकान तक.

दक्षिण— अशोक सेठ कपड़ा वालों की दुकान से बीरेन्द्र रैकवार के मकान को लेते हुये कदीर मंसूरी के मकान तक.

पश्चिम— अशोक सेठ कपड़ा वाले की दुकान से संजय अग्रवाल मिठाई वाले की दुकान तक.

पूर्व— कदीर मंसूरी के मकान से बसीर सब्जी फरोस के मकान तक.

वार्ड नं. 06—नेहरू वार्ड

उत्तर— रामदास अहिरवार के मकान से बी. के. मिश्रा के मकान को लेते हुये एवं रेल्वे स्टेशन को सम्मिलित करते हुये नेहरू गेट तक.

दक्षिण— अहिरवार चौराहा से हरिहर रोड की दायीं वाली बस्ती को सम्मिलित करते हुये दशरथ चौड़ा से दोनों तरफ की आबादी संतोष दीक्षित वाली लाइन सहित नाथूराम गुप्ता एवं पंजाब नेशनल बैंक के सामने वाली बस्ती को लेते हुए नरेश सोनी रामकुमार रैकवार रामदास हरिजन के मकान तक.

पश्चिम— रामदास हरिजन वाली बस्ती को लेते हुए रेल्वे केबिन तक एवं रामकुमार से शुक्ला जी जगदीश महाराज, रामाधार यादव दयाशंकर विश्वकर्मा सत्तन तलैया तक.

पूर्व— रेल्वे स्टेशन नेहरू गेट गोपाल प्रजापति की दुकान को लेते हुये अहिरवार चौराहा तक.

वार्ड नं. 07—लक्ष्मी वार्ड

उत्तर— बाबूसिंह के मकान से नवाब सिंह को सम्मिलित करते हुये छोटे लाल शर्मा एवं विजेन्द्र सिंह वाले रास्ते को लेते हुये रिलायन्स टावर से श्री अग्रवाल के रास्ते होकर पालीवाल के मकान को लेते हुये मोहन सेठ तक.

दक्षिण— शाकरा बेगम से कब्रिस्तान के पीछे वाली बस्ती पाठक पेंटर को लेते हुये मोती सोनी तक.

पश्चिम— मोती सोनी से महावीर शुक्ला के मकान की ओर बस्ती को सम्मिलित करते हुये बाबूसिंह के मकान तक.

पूर्व— साकरा बेगम से अरूण पाठक के लाइन को लेते हुये एवं श्री अग्रवाल प्रदीप पालीवाल व डॉ. त्रिपाठी के मकान को सम्मिलित करते हुये मोहन सेठ के मकान को सम्मिलित करते हुये रिलायन्स टावर तक.

वार्ड नं. 08—रघुराज गंज वार्ड

उत्तर— चौरसिया पान वाले की दुकान से रोशन मार्केट को लेते हुये राजकुमार रावत की दुकान तक.

दक्षिण— राधेलाल राय की दुकान (गद्दी) से बैंदे वाले सेठ की दुकान को लेते हुये सतोरा वाले यादव की दुकान तक.

पश्चिम— राजकुमार मेहरोत्रा के मकान से लोकेन्द्र सिंह का मकान एवं दयाशंकर शुक्ला के मकान को लेते हुये ताप्रकार की दुकान से राधेलाल की गद्दी से राजकुमार की दुकान तक एवं ताप्रकार की दुकान से सुरेश गुप्ता के मकान को सम्मिलित करते हुये अग्रवाल के भवन को लेते हुये सिल्ली बैना के आगे तक.

पूर्व— सतोरा वाले यादव के मकान से चौरसिया की दुकान तक.

वार्ड नं. 09—राजीव गांधी वार्ड

उत्तर— परमानंद अग्रवाल की लोहा की दुकान से मर्सिजद को लेते हुये डॉ. त्रिपाठी के आगे रामदास सेठ के मकान तक.

दक्षिण— कृषि विस्तार अधिकारी भवन से राज मंदिर होते हुये मुनीलाल खटीक के मकान को लेते हुये बृजकिशोर गुप्ता की ऑयल मील तक.

पश्चिम— परमानंद अग्रवाल की लोहा की दुकान से बृजकिशोर की ऑयल मील तक.

पूर्व—रामदास सेठ से पुरानी कोतवाली को लेते हुये कृषि विस्तार अधिकारी के भवन तक.

वार्ड नं. 10—सरस्वती वार्ड

उत्तर—प्राथमिक शाला के आगे बसीर सब्जी फरोस से स्वामीदीन राजपूत के मकान वाली बस्ती तक.

दक्षिण—सरदार बलविन्दर सिंह के मकान से बृजकिशोर महाराज के मकान को लेते हुये तेईया वाले वकील साहब के मकान को शामिल करते हुये बाबूसिंह के मकान को लेते हुये शंकर सेन के मकान तक.

पश्चिम—पुरुषोत्तम सोनी की दुकानों से सरदार बलविन्दर सिंह के मकान तक.

पूर्व—शंकर सेन के मकान से आर. पी. गौतम के मकान को लेते हुए ट्रांसफार्मर वाली बस्ती को लेते हुये रमजान खां के मकान सहित स्वामीदीन राजपूत के मकान तक.

वार्ड नं. 11—दुर्गा वार्ड

उत्तर—राजेन्द्र कुमार (वीरा सोनी) एवं वीरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी के मकान को लेते हुये हरनाम महाराज एवं मुना चौरसिया के मकान को लेते हुये बड़ेरा वाले ठाकुर के खेत की बस्ती को शामिल करते हुये सरस्वती शिशु मंदिर के नवीन भवन तक.

दक्षिण—अहमद वक्स के मकान के बगल में रेस्ट हाउस की बॉण्ड्रीवाल सहित छोटेलाल हरिजन के मकान तक.

पश्चिम—अहमद वक्स रेस्ट हाउस को लेते हुए पेट्रोल पम्प से कन्या उ. मा. विद्यालय तक विनोद जैन वाले रास्ते को सम्मिलित करते हुये नगर पंचायत कार्यालय को लेते हुये वीरा सोनी वीरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी के मकान तक.

पूर्व—छोटेलाल हरिजन के मकान एवं गर्ल्स स्कूल को लेते हुये शंकर जी के मंदिर से प्रारम्भ कर लक्ष्मन सिंह की लाइन पूरी लेते हुये सरस्वती शिशु मंदिर के नवीन भवन तक.

वार्ड नं. 12—श्रीराम वार्ड

उत्तर—सत्तन तलैया के पश्चिमी भाग से प्रारम्भ करते हुये डी. एल. यादव महेन्द्र विश्वकर्मा छोटेलाल जैन मुना खां के मकान तक.

दक्षिण—डी. एल. यादव से भगवानसिंह के मकान को लेते हुये मथुरा महाराज के मकान को सम्मिलित कर रामप्यारे अहिरवार पुलिस वाले के मकान तक.

पश्चिम—डी. एल. यादव से जे. बी. मिशन स्कूल प्रेस बाबू, मथुराप्रसाद तिवारी, सुखनन्दन गुप्ता, भगवानसिंह नाउपहारिया वाले के मकान तक की दोनों ओर की बस्ती.

पूर्व—रामप्यारे पुलिस वाले के मकान से प्रारम्भ कर बालमुकुन्द शर्मा चन्दपाल सिंह मुना राजा ग्या भरभुजा रमेश श्रीवास्तव संतोष साहू के मकान से शत्रुघ्न नामदेव के मकान तक एवं मुछ्छन खां के मकान से देवेन्द्र पटेंरिया मकान की लाइन की बस्ती को लेते हुये तिज्जु कोरी के मकान तक.

वार्ड नं. 13—सुभाष वार्ड

उत्तर—दीनदयाल कोरी से कैलाश अनुरागी पूर्व चेर मैन के मकान को लेते हुये छक्की अनुरागी राजेन्द्र जंगरिया पुष्पेन्द्र सिंह सेगर प्राणी नाई मोती अग्रवाल से स्टेट बैंक तक.

दक्षिण—अछ्छन खां के मकान से राज मुहम्मद के मकान को लेते हुये रबूदे नामदेव के मकान को सम्मिलित करते हुये बनू रैकवार के मकान से रामस्वरूप नैकया प्राणी नाई शमशेर खां के एरिया वाली बस्ती को लेते हुये क्लासिस कैबिल्स फैक्ट्री एवं राजेश अग्रवाल के मुकान एवं जैन मंदिर तक.

पश्चिम—दीनदयाल कोरी से छक्की कोरी एवं रमेश धोबी के मकान को लेते हुये अछ्छन खां के मकान तक.

पूर्व—स्टेट बैंक से चुरवारी वाले सोनी जी के मकान की लाइन को सम्मिलित करते हुये मध्यांचल बैंक प्रथम पैलेस क्लासिक कैबिल फैक्ट्री राजेश अग्रवाल के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 14—इंदिरा वार्ड

उत्तर—अशोक सिंह के मकान से खचोरा साहू, मचकुन सिंह, रामपाल साहू, सत्तार खां, नन्दकिशोर साहू, भागीरथ राजपूत, सब्बीर मुहम्मद से अहमद वक्स, लछमन सिंह सरसेड़ वाले, बंशगोपाल विश्वकर्मा, बाल साहू प्रतापभान सोनकिया, दैवकीनंदन चौबे वाली लाइन को लेते हुये अवस्थी पिपरी वाले के मकान से राजेन्द्र यादव छोटू मिश्रा रामस्वरूप पुलिस वाले के मकान तक.

दक्षिण—रामस्वरूप पुलिस वाले के मकान से मनीष पाण्डे के मकान को एवं नये थाना को सम्मिलित करते हुये कृष्ण कॉलेज वाली बस्ती को लेते हुये गैस एजेन्सी गोदाम सहित नैक्या के स्कूल तक.

पश्चिम—छोटू मिश्रा से बाल साहू को लेते हुये बेसकिया मिल को सम्मिलित करते हुये अहमद वक्स से छोटी कुटी की दोनों ओर की बस्ती लेते हुये कैलाश जैन वाले समस्त एरिया को सम्मिलित करते हुये गैस गोदाम नैक्या के स्कूल तक.

पूर्व—अशोक सिंह के मकान से उदयभान तिवारी एवं संजय खरे, शशिभूषण खरे, मज्जू रैकवार बम्हौरी वाले सेठ के मकान को सम्मिलित करते हुये राज मैरिज हाउस, शांति दाल मील, के. के. दाल मील, मुना अमूद वाले संजय पुरवाल बस स्टैण्ड को सम्मिलित करते हुये रोशन के कुआं तक.

वार्ड क्रमांक 15—नेहरू वार्ड

उत्तर—कांजी हाउस, कन्या प्राथमिक पाठशाला से पुराने शिशु मंदिर वाली बस्ती को सम्मिलित करते हुये महाराणा प्रताप स्कूल को लेते हुये देवेन्द्र सिंह परिहार, मुनू दददा के मकान को लेते हुये पावर हाउस तक.

दक्षिण—देवेन्द्र सिंह परिहार के मकान से रोड के दोनों तरफ की बस्ती को लेते हुये डॉ. भानुप्रताप सेन के अस्पताल की पीछे वाली बस्ती को लेते हुये रामाधीन पाठक के मकान को सम्मिलित करते हुये बीरसिंह राजपूत के मकान से रविभूषण खरे के मकान को लेते हुये कांजी हाउस कन्या शाला तक.

पश्चिम—कन्या शाला कांजी हाउस से बीरसिंह राजपूत के मकान तक.

पूर्व—बुड़े वाले साहू, राजबहादूर राजपूत लक्ष्मी चौबे, नारायण चौबे छबलाल साहू, रामरतन नापित के पीछे वाली बस्ती एवं मुनू दददा एरिया की बस्ती देवेन्द्र सिंह परिहार के आस-पास की बस्ती लेकर कांजी हाउस क. प्राथ. शाला तक.

मसूद अख्तर, कलेक्टर.

Chhatarpur, the 3rd April 2014

No. 103-SC-14.—In exercise of the power conferred by the notification No. 4-520-XVIII-3-04, dated 24th February 2004 of Urban Administration & Development Department of Government of Madhya Pradesh. I, Dr. Masood Akhtar Collector, District Chhatarpur Madhya Pradesh under section 29 (1) of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) here by determine the extent of Wards of Nagar Parisad Harpalpur, District Chhatarpur as per Schedule below.

SCHEDULE

NUMBER AND NAME OF THEWARDS

| Ward No. | Name of Ward |
|----------|--------------|
| (1) | (2) |

1. Vinowa Ward
2. Ambedkar Ward
3. Mukharji Ward
4. Harihar Ward
5. Lohiya Ward
6. Nehru Ward
7. Laxmi Ward
8. Raghubaj Ganj Ward
9. Rajeev Gandhi Ward
10. Saraswati Ward
11. Durga Ward
12. Shri Ram Ward
13. Subhash Ward
14. Indira Ward
15. Mahatma Gandhi Ward

PARTICULAR OF BOUNDARIES OF THEWARDS

Ward No. 1—Vinowa Ward

North—Starting from the Government college including F.C.I. Godam and the whole part of Todi upto Agriculture Production Mandi.

South—Starting from Sugar Mill Sarsed Road including Harihar Kuti Ware House upto the transfer infront of Agriculture Production Mandi.

West—Starting from the Government college including F.C.I. Godam upto Sugar Mill Sarsed Road.

East—Starting from the Agriculture Production Mandi warehouse including the house infront of Jhallu Maharaj and including the shops of Thakurdas Ahirwar upto the Populated area of that side of Lachhura Road.

Ward No. 2—Ambedkar Ward

North—Starting from Mandi warehouse including the house of Suresh Tripathi upto Kakunpura Road.

South—Starting from house of Santosh Kumar Gupta of Khareal including the Hospital and the shops of Nagar Panchayat upto the Rath Road.

West—Starting from the transformer of house of Santosh Gupta of Kharela including the house of Jhallu Maharaj upto Mandi warehouse.

East—Starting from the shops of Nagar Panchayat Rath Road including the populated area of hospital of Kakunpura Road and including the platform of temple and Mantri Colony upto the house of Bhanpratap Vishwakarma.

Ward No. 3—Mukharji Ward

North—Starting from house of Virendra Rajput including the under construction Temple and including the graveyard upto Hardayal School.

South—Starting and including the temple platform upto the shops of Chhote Lal Sharma.

West—Starting from platform of the temple including the populated area of Arjadiya Colony upto the house of Virendra Rajput Kakunpura Road.

East—Starting from the shops of Chhote Lal Sharma and including the house of Munna Lal Vishwakarma and the whole graveyard upto Hardayal School.

Ward No. 4—Harihar Ward

North—Starting from the house of Pragilal Sahu at Rath Road including the area of old ice factory upto the Ghora Thokar.

South—Including Railway gate Mal Godam upto Ghora Thokar.

West—Starting from the Choki of Railway gate including the populated area of left hand side of Shivram Soni Rath Road and including the house of Pragilal Sahu upto the Graveyard.

East—Including the populated area behind Pancham Lal Richhariya and including Mal Godam upto railway signal.

Ward No. 5—Lohiya Ward

North—Starting from the house of Sanjay Agrawal (Sweet Seller) upto the house of Kalicharan Harijan.

South—Starting from the shop of Ashok Seth (Cloth Merchant) including the house of Virendra Raikwar upto the house of Kadeer Mansuri.

West—Starting from the shop of Ashok Seth (Cloth Merchant) upto the shop of Sanjay Agrawal (Sweet Seller).

East—Starting from the house of Kadeer Mansuri upto the house of Baseer (Vegetable Seller).

Ward No. 6—Nehru Ward

North—Starting from the house of Ram Das Harijan including the house of B.K. Mishra and including Railway Station upto the Nehru Gate.

South—Starting from Ahirwar Chauraha and including populated area of left hand side of Harihar Road, including the populated area of both the sides of Dashrath Chauda and including the line of Santosh Dixit and including the populated area infront of Nathu Ram Gupta and Panjab National Bank upto the house of Naresh Soni, Ram Kumar Raikwar and Ram Das Harijan.

West—Including the populated area of Ram Das Harijan upto Railway Cabin and starting from the house of Ram Kumar upto Shukla Ji Jagdeesh Maharaj, Ramadhar Yadav, Daya Shankar Vishwakarma and Sattan Talaiya.

East—Including the Railway station Nehru gate the shop of Gopal Prajapati upto Ahirwar Chauraha.

Ward No. 7—Laxmi Ward

North—Starting from the house of Babu Singh and including Nawab Singh including the rout of Chhotelal Sharma and Brajendra Singh from Reliance Tower via Shri Agrawal rout and including the house of Paliwal upto Mohan Seth.

South—Starting from Shakra Begam including populated area behind the graveyard and Pathak Painter upto Moti Soni.

West—Starting from Moti Soni including the populated area towards the house of Mahaveer Shukla upto the house of Babu Singh.

East—Starting from Shakra Begam including the line of Arun Pathak and including the house of Shri Agrawal Pradeep Paliwa Land Dr. Tripathi and including the house of Mohan Seth upto the Reliance Tower.

Ward No. 8—Raghuraj Ganj Ward

North—Starting from the shop of Chaurasiya Pan Seller, including the Roshan Market upto the shop of Raj Kumar Rawat.

South—Starting from the shop (Gaddi) of Radhe Lal Rai including the shop of Seth of Bende. upto the shop of Yadav Ji of Sataura.

West—Starting from the house of Raj Kumar Mehrotra, including the house of Lokendra Singh and the house of Daya Shankar Shukla. Starting from the Gaddi of Radhe Lal Rai upto the shop of Raj kumar and starting from the shop of Tamarkar, including the house of Suresh Gupta and Agrawal Bhawan upto a head Silli Vaina.

East—Starting from the shop of Yadav ji of Sataura upto the shop of Chaurasiya.

Ward No. 9—Rajeev Gandhi Ward

North—Starting from the iron shop of Parmanand Agrawal including the Mosque upto the house of Ram Das Seth a head Dr. Tripathi.

South—Starting from the building of Agriculture Development Officer via Raj Temple including the house of Munni Lal Khateek upto the Oil Mill of Brij Kishor Gupta.

West—Starting from the Iron shop of Parmanand Agrawal upto the Oil Mill of Brij Kishor Gupta.

East—Starting from Ram Das Seth including old Police Station upto the building of Agriculture Development Officer.

Ward No. 10—Saraswati Ward

North—Starting from Baseer (Vegetable Seller) a head Primary School upto the populated area of house of Swami Deen Rajput.

South—Starting from the house of Sardar Balvindar Singh including the house of Brij Kishor Maharaj and the house of Advocate (of Teiya) and the house of Babu Singh. upto the house of Shankar Sen.

West—Starting from the shops of Purushottam Soni upto the house of Sardar Balvindar Singh.

East—Starting from the house of Shankar Sen including the house of R. P. Gautam and the populated area of Transformer and including the house of Ramjan Khan upto the house of Swamideen Rajput.

Ward No. 11—Durga Ward

North—Including the house of Rajendra Kumar (Veera Soni) and Virendra Kumar Chaturvedi and including the house of Harnam Maharaj and Munna Chaurasiya and including the populated area of field of Thakur (of Badera) upto the new building of Saraswati Shishu Mandir.

South—Starting beside the house of Ahmad Bux including the boundary wall of Rest House upto the house of Chhote Lal harijan.

West—Starting from the petrol Pump and including the house of Ahmad Bux and boundary wall of Rest House upto Girls Higher Secondary School and including the rout of Vinod Jain and office of Nagar Panchayat upto the house of Veera Soni Virendra Kumar Chaturvedi.

East—Starting from the Temple of Shankar ji and including the house of Chhotelal Harijan and Girls School and the whole line of Laxman Singh upto the New building of Saraswati Shishu Mandir.

Ward No. 12—Shri Ram Ward

North—Starting from the western part of Sattan Talaiya upto the house of D. L. Yadav, Mahendra Vishwakarma, Chhotelal Jain, Munna Khan.

South—Starting from the house of D. L. Yadav and including the house of Bhagwan Singh and Mathura Maharaj upto the house of Police Ram Pyare Ahirwar.

West—Starting from the house of D. L. Yadav upto the populated area of both the sides of the house of J.B. Mishan School, Press Babu, Mathura Prasad Tiwari, Sukhnandan Gupta and Bhagwan Singh of Naupahariya.

East—Starting from the house of Police Ram Pyare and including the house of Bal Mukund Sharma, Chandra Pal Singh, Munna Raja, Gya Barbhuja, Ramesh Shriwastav and Santosh Sahu upto the house of Shatrughan Namdev and starting from the house of Muchhachhan Khan including populated area of the line of Devendra Pateriya's house upto the house of Tijju Kori.

Ward No. 13—Subhash Ward

North—Starting from the house of Deen Dayal Kori including the house of Kailash Anuragi, the former chairman, and from Chhakki Anuragi, Rajendra Jangriya, Pushpendra Singh Sengar, Pragi Nai, Moti Agrawal upto State Bank.

South—Starting from the house of Achhachhan Khan including the house of Raj Muhammad and Rabude Namdev and from the house of Bannu Raikwar including the populated area of Ram Swaroop Naikya Pragi Nai and Shamsher Khan an including Classic Cables Factory and the house of Rajesh Agrawal upto Jain Temple.

West—Starting from the house of Deen Dayal Kori including the houses of Chhakki Kori and Ramesh Dhobi upto the house of Achhachhan Khan.

East—Starting from the State Bank and including the line from the House of Soni ji of Churwari upto Madhyanchal Bank Palace Classic Cabel Factory and the house of Rajesh Agrawal.

Ward No. 14—Indira Ward

North—Starting from the house of Ashok Singh and including Khachora Sahu, Machkun Singh, Ram pal Sahu, Sattar Khan, Nand Kishor Sahu, Bhagirath Rajput, and from Sabbeer Mohammad including the line of Ahemd Bux, Laxman Singh of Sarsed, Bansh Gopal Vishwakarma, Bal Sahu, Pratap Bhan Sonakiya and Devki Nandan Chaubey and from the house

of Aswathi Pipri upto Rajendra Yadav, Chhotu Mishra and the house of Ram Swaroop Police.

South—Starting from the house of Police Ram Swaroop and including the house of Maneesh Pandey and new police station and the populated area of Krishna College and Gas Agency Godam upto the School of Naikya.

East—Starting from Chhotu Mishra including Bal Sahu and Beskiya Mill. From Ahmad Bux including the populated area of both the sides of Chhoti Kuti and including the whole area of Kailash Jain upto the Gas Godam Naikya School.

East—Starting from the house of Ashok Singh upto the well, of Roshan including the house of Uday Bhan Tiwari, Sanjay Khare, Shashi Bhushan Khare Majju Raikwar, and the house of Seth of Bamhauri and Rai Marrage house, Shanti Dal Mill, K. K. Dal Mill, Munna of Amud an Sanjay Purwal Bas Stand.

Ward No. 15—Mahatma Gandhi Ward

North—Starting from the Kanji House Girls Primary School upto the Power House including the populated area of Shishu Mandir, Maharana Pratap School and the house of Devendra Singh Parihar and Munnu Dadda.

South—Starting from the house of Devendra Singh Parihar upto the Kanji house Girls Primary School including populated area of both the sides of the Road, populated area of behind the hospital of Dr. Bhanu Pratap Sen, including the house of Ramadheen Pathak, and including from the house of Veer Singh Rajput upto the house of Ravi Bhushan Khare.

West—Starting from Kanji House Girls Primary School upto the house of Veer Singh Rajput.

East—Including Sahu of Budere, Raj Bahadur Rajput, Laxmi Chaubey, Narayan Chaubey Chhab Lal Sahu, the populated area behind the house of Ram Ratan Napit and the populated area of Munnu Dadda and the near by populated area of Devendra Singh Parihar upto Kanji House Girls Primary School.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 9 अप्रैल 2014

क्र. 865-जिशविअ-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्र. 4-520-अठाह-3-04, दिनांक 24 फरवरी, 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, मोहन लाल मीणा, कलेक्टर, जिला सतना, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37, सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद् उचेहरा, जिला सतना के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँः—

अनुसूची

| वार्ड क्रमांक (1) | वार्ड का नाम (2) |
|----------------------|---------------------|
| 01 | डॉ. राममनोहर लोहिया |
| 02 | विष्णु वाराह |
| 03 | संत रैदास |
| 04 | जानकी रमण |
| 05 | संजय गांधी |
| 06 | पं. दीन दयाल |
| 07 | मीरा बाई |
| 08 | पं. नेहरू |
| 09 | महात्मा गांधी |
| 10 | सुभाष चन्द्र |
| 11 | मुखर्जी |
| 12 | राधाकृष्णन |
| 13 | अ. कलाम आजाद |
| 14 | अम्बेडकर |
| 15 | लक्ष्मी बाई |

वार्ड क्रमांक 01—डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड

उत्तर—रूपन के मकान से विद्युत् मंडल होते हुए मेन रोड के उत्तरी भाग रामकुमार किरायेदार कचेर के मकान तक एवं नई मैहर रोड दुर्गा मंदिर से कमलेश गुप्ता के मकान होते हुए पूर्व दिशा के सुकरू कुम्हार के मकान तक.

पूर्व—रूपन के मकान में कटरा रोड सुषमा बिज के मकान तक.

दक्षिण—सुषमा बिज के मकान से गजेन्द्र सिंह के मकान तक.

पश्चिम—गजेन्द्र सिंह के मकान से बन विभाग होते हुए हरिजन बस्ती रपटा नदी तक.

वार्ड क्रमांक 02—विष्णु वाराह वार्ड

उत्तर—रपटा तिराहा छोटेलाल के मकान से बाजार रोड के दक्षिण पुराना थाना तक.

पूर्व—रपटा तिराहा से नई रोड मैहर रोड के पश्चिम एवं पूर्वी भाग बाबू समद के मकान तक.

दक्षिण—बाबू समद के मकान से रामना टोला के उत्तर कन्या उ. मा. वि. तक.

पश्चिम—कन्या उ. मा. वि. से पुराना थाना तक.

वार्ड क्रमांक 03—संत रैदास वार्ड

उत्तर—नया टोला गया चर्मकार के मकान से हत्था बाबा मंदिर तक.

पूर्व—रामकुमार कचेर किरायेदार के मकान से संजय नगर नई बस्ती नदी के उस पार तक.

दक्षिण—संजय नगर से शा. गांधी प्राथमिक पाठशाला तक.

पश्चिम—शा. गांधी प्राथमिक पाठशाला से मेन रोड उत्तर दिशा रविदास चौराहा तक.

वार्ड क्रमांक 04—जानकी रमण वार्ड

उत्तर—संकट मोचन मंदिर से छतुरी टोला होते हुए जानकी रमण अखाड़ा तक.

पूर्व—शा. कन्या प्रा. पाठशाला से पूर्व की ओर रोड के उत्तर संकट मोचन मंदिर तक.

दक्षिण—कताहुर तमेर के मकान से जीतेन्द्र पाण्डेय के मकान होते हुए सब्जी मंडी तक.

पश्चिम—घनश्याम शर्मा के मकान से सन्यासी घाट के पास कताहुर तमेर के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 05—संजय गांधी वार्ड

उत्तर—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से बाजार रोड दक्षिण लालजी सरावगी के दुकान तक.

पूर्व—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से पीछे तरफ पुराने जनपद तक.

दक्षिण—लालजी सरावगी के दुकान से अशोक शुक्ला के मकान की अतरी होते हुए बढ़ी तमेर के मकान से गुलबिया लोहार तक.

पश्चिम—पुराने जनपद से तमेरन टोला रोड के उत्तर धीसल चौरसिया के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 06—पं. दीनदयाल वार्ड

उत्तर—रामगारीब तमेर के मकान से तमेरन टोला दक्षिण नथूलाल के मकान तक.

पूर्व—रामगारीब तमेर के मकान से मैहर रोड के पश्चिम परसमनिया तिराहा तक.

दक्षिण—लखन तमेर के मकान से होते हुए खरकौनी टोला रोड साधू सिंह की अतरी परसमनिया तिराहा तक.

पश्चिम—श्यामबल्लभ शुक्ला के मकान से दक्षिण एवं पूर्व के मकान रजन साहू से लखन तमेर के होते हुए परसमनिया तिराहा तक.

वार्ड क्रमांक 07—मीरा बाई वार्ड

उत्तर—गुलब्बो के मकान से बंशी गुप्ता के मकान तक मैन रोड के दक्षिण.

पूर्व—गुलब्बो के मकान से पश्चिमी भाग गौरीशंकर मंदिर तक.

दक्षिण—गौरीशंकर मंदिर रोड से पश्चिम महमूद शाह के मकान तक.

पश्चिम—महमूद शाह के मकान से मुनी शुक्ला के मकान तक पूर्वी भाग बाबूलाल की अतरी होते हुए बंशी गुप्ता के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 08—पं. नेहरू वार्ड

उत्तर—सन्यासी टोला जान मोहम्मद के मकान से जबहा घाट मस्जिद तक.

पूर्व—जान मोहम्मद के मकान से दशरथ तमेर के मकान तक.

दक्षिण—दशरथ तमेर के मकान से श्यामसुन्दर के मकान होते हुए मैन रोड के उत्तर रामदयाल गुप्ता के मकान तक.

पश्चिम—रामदयाल गुप्ता के मकान से मढ़लिन टोला होते हुए जबहा घाट मस्जिद तक.

वार्ड क्रमांक 09—महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर—बढ़ी श्रीवास्तव के मकान से नदी के किनारे होते हुए हरिहर शर्मा के मकान तक.

पूर्व—बढ़ी श्रीवास्तव के मकान से मढ़लिन टोला अतरी होते हुए श्यामलाल गुप्ता के दुकान तक.

दक्षिण—श्यामलाल गुप्ता की दुकान से मैन रोड किला होते हुए गर्ग की चक्की तक.

पश्चिम—गर्ग की चक्की से पठकान टोला, कोरियान टोला होते हुए गणेश शर्मा के मकान तक पश्चिमी भाग.

वार्ड क्रमांक 10—सुभाष चन्द्र वार्ड

उत्तर—जमुना गुप्ता के मकान से मैन रोड दक्षिण लक्षण गर्ग के मकान तक विन्ध्यवासिनी मंदिर तक.

पूर्व—जमुना गुप्ता के मकान से बाबूलाल की अतरी होते हुए खुल्लू काढ़ी के मकान होते हुए परसमनिया रोड मो. रमजान के मकान तक.

दक्षिण—नहे काढ़ी के मकान से रामदेवालय होते हुए विन्ध्यवासिनी मंदिर तक.

पश्चिम—मो. रमजान के मकान से परसमनिया रोड नहे काढ़ी तक.

वार्ड क्रमांक 11—मुखर्जी वार्ड

उत्तर—प्रेमलाल गौतम के मकान से गौतम आटा चक्की तक.

पूर्व—गोपाल अखाड़ा से गणेश पुरा होते हुए गणेश के मकान तक.

दक्षिण—कमलेश शर्मा के मकान से अमरनाथ सोनी के मकान होते हुए बैद्यन एवं पटकान टोला होते हुए प्रेमलाल गौतम के मकान तक.

पश्चिम—गौतम आटा चक्की से परसमनिया रोड उत्तरी भाग गोपाल अखाड़ा तक.

वार्ड क्रमांक 12—राधाकृष्णन वार्ड

उत्तर—रामलाल चौरसिया के मकान से अहिरान टोला होते हुए खेरमाई रोड नथू ताप्रकार के मकान तक.

पूर्व—नथू ताप्रकार के मकान से खेरमाई मंदिर तक.

दक्षिण—गौरीशंकर बेल्दार के मकान से रहवर मैदान होते हुए दमादन टोला नई बस्ती संपत कुशवाहा के मकान तक.

पश्चिम—गौरीशंकर के मकान से परसमनिया रोड कोरियान एवं कोलान कारीमाटी होते हुए उमेशी कुम्हार के मकान तक दक्षिणी भाग.

वार्ड क्रमांक 13—अब्दुल कलाम आजाद वार्ड

उत्तर—मुबारक अली के मकान से परसमनिया रोड मो. जलाल के मकान तक.

पूर्व—कन्छेदी घोष के मकान से गौरीशंकर मंदिर तक पूर्वी भाग.

दक्षिण—मो. गनी के मकान से गौरीशंकर मंदिर तक दक्षिण भाग होते हुए कन्छेदी घोष के मकान तक.

पश्चिम—मुबारक अली के मकान से पूर्वी भाग के मकान मो. गनी के मकान तक.

वार्ड नं. 14—अम्बेडकर वार्ड

उत्तर—अर्जुन बसोर के मकान से मैहर रोड की पुलिया तक पश्चिमी भाग के मकान.

पूर्व—सरमन के मकान से मैहर रोड पूर्वी एवं पश्चिम भाग के मकान मैहर रोड की पुलिया तक.

दक्षिण—कंधीलाल कुशवाहा के मकान से परसमनिया चौराहा होते हुए विन्धेश्वरी तमेर के मकान तक.

पश्चिम—विन्धेश्वरी तमेर के मकान से नथू लाल साहू के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 15—लक्ष्मी बाई वार्ड

उत्तर—हमीद मोहम्मद सलीम के मकान से रामना टोला रोड के दक्षिण चिकान धर्मशाला तक.

पूर्व—सलीम मोहम्मद के मकान से मैहर रोड के पश्चिम लखन ताप्रकार के मकान तक.

दक्षिण—लखन ताप्रकार के मकान से परमेश्वरदीन बढ़ई के मकान तक.

पश्चिम—परमेश्वरदीन बढ़ई के मकान से चिकान धर्मशाला तक मैन रोड के पूर्व के मकान तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल मीणा, कलेक्टर,

सतना, दिनांक 9 अप्रैल 2014

क्र. 865—परिसीमन—सतना.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 865—परिसीमन—सतना—2014, दिनांक 9 अप्रैल 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल मीणा, कलेक्टर,

Satna, the 9th April 2014

No. 865-DUDA-2014.—In exercise of the power conferred by the notification No. 4-520-XVIII-3-04, dated 24th February 2004 of Urban Administration & Development of Government of Madhya Pradesh. I, Mohan Lal Meena, Collector, District Satna, Madhya Pradesh under section 29 (1) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) here by determine the extent of wards of Municipal Council Unchahara as per schedule below :—

SCHEDULE

| Ward No. | Name of Ward |
|----------|-----------------------|
| (1) | (2) |
| 1 | Dr. Ram Manohar Lohia |
| 2 | Vishnu Varah |
| 3 | Sant Raidas |
| 4 | Janki Raman |
| 5 | Sanjay Gandhi |
| 6 | P. Deen Dayal |
| 7 | Meera Bai |
| 8 | P. Nehru |
| 9 | Mahatma Gandhi |
| 10 | Subhash Chandra |
| 11 | Mukherji |
| 12 | Radhakrishan |
| 13 | A. Kalam Azad |
| 14 | Ambedkar |
| 15 | Laxmi Bai. |

Ward No. 1—Dr. Ram Manohar Lohia Ward

North—From the house of Rupan and M.P.E.B and main road north side to house of the Ram Kumar Kacher tenant and new Maheir road from the Durga Temple and house of the Kamlesh Gupta of the east side upto house of the Sukuru Kumhar.

East—From the house of Rupan to Katra road upto house of Sushma Bij.

South—From the house of Sushma Biz upto Gajendra Singh house.

West—From of the house of Gajendra Singh to Forest Office and Harijan Basti upto Rapta river.

Ward No. 2—Vishnu Varah Ward

North—From the Rapta Tirah house of the Chotte Lal to market road south side upto old Thana.

East—From the Rapta Tirah new road maihar west side and east side upto house of Babu Samad.

South—From the house of Babu Samad to Ramana tola north side upto girls higher secondary school.

West—From the girls higher secondary school to old thana.

Ward No. 3—Sant Raidas Ward

North—New Tola house of the Gaya Charmkar upto temple of Hatha Baba.

East—From the house of Ram Kumar tenant upto other side of the river new Basti Sanjay Nagar.

South—From the Sanjay Nagar upto Shashkiya Gandhi Primary School.

West—From the Shashkiya Gandhi Primary School to main road side of north house upto Ravi Das Chauraha.

Ward No. 4—Janki Raman Ward

North—From the temple of Sankat Mochan to Chatrri tola upto Janki Raman Akharha.

East—From the Girls Primary School to east of the road side of north upto temple of Sankat Mochan.

South—From the house of Kathahur Tamer to house of Jitendra Pandey and upto Sabji Mandi.

West—From the Ghanshyam Sharma to Sanyasi Ghat and upto house of Kathahur Tamer.

Ward No. 5—Sanjay Gandhi Ward

North—Samudhayik Hospital to bazaar road side of south upto shop of Lal Ji Saravgi.

East—Behind of Samudhayik hospital upto old Janpad Office.

South—From the shop of Lal Ji Saravgi to house of Ashok Shukla Atri house of Badri Tamer upto house of Gulabiya Lohar.

West—From the old Janpad to Tameran tola road of north side upto house of Ghisal Chauhrasia.

Ward No. 6—P. Deen Daya Ward

North—From the house of Ram Garib Tameran Tola of south side upto house of Natthu Lal.

East—From the house of Ram Garib Tamer to Mahir road west side upto Prasmaniya Tiraha.

South—From the both side of house of Lakan Tamer to Kharkhoni tola road and Sadhu Singh Atri upto Prasmaniya Tiraha.

West—From the house of Shyambalam Shukla to south and east house of Rajjan Sahu and Lakan Tamer upto Prasmaniya Tirah.

Ward No. 7—Meera Bai Ward

North—From the house of Gulabo main road south side upto house of Banshi Gupta.

East—From the house of Gulabo side of west upto Temple of Gauri Shankar.

South—From the Temple of Gauri Shankar road west side upto house Mehmood Shah.

West—From the house Mehmood Shah to east part of Munni Shukla house and Babulal Atri upto house of Banshi Gupta.

Ward No. 8—P. Nehru Ward

North—From the house of Jaan Mohamad Sanyasi Tola upto Jawah Ghat Mosque.

East—From the house of Jaan Mohamad upto house of the Dashrath Tamer.

South—From the house of Dashrath Tamer to house of Shyam Sundar main road side of north house upto house of Ramdayal Gupta.

West—House of the Ramdayal Gupta to Madhlin Tola upto Jawah Ghat Mosque.

Ward No. 9—Mahatma Gandhi Ward

North—From the house Badri Shrivastav Bank of the river upto house of Harihar Sharma.

East—From the house Badri Shrivastav to Mandhlin tola atri upto shop of Shyam Lal Gupta.

South—From the shop of Shyam Lal Gupta main road fort towards upto Garg Flour Mill.

West—From the Garg Flour Mill to Patkaan Tola, Koriyan tola upto house of Ganesh Sharma.

Ward No. 10—Subhash Chandra Ward

North—From the house of Jamuna Gupta main road south side upto Laxman Garg house.

East—From the house of Jamuna Gupta to Babulal Atri by passing house Kullu Kachi upto house of Mo. Ramjan Prasmaniya road.

South—From the house of Nanhe Kachi to Ramdiwale by passing temple of Vindhvasani.

West—From house of Mo. Ramjan upto house of Nanhe Kachi Prasmaniya road.

Ward No. 11—Mukherji Ward

North—From house of the Premlal Gautam upto the Gautam Flour Mill.

East—Gopal akhara to Ganesh Pura upto house of Ganesh.

South—From the house of Kamlesh Sharma to Amarnath Soni house and Vaidhan Tola or Patkan tola upto house of Premlal Gautam.

West—From the Flour Mill gautam upto Prasmaniya road north side Gopal Akhara.

Ward No. 12—Radhakrishan Ward

North—From the house of Ramlal Chauhrasia to Ahiraan tola and Khermai road upto house of Nathu Tamrakar.

East—From the house of Nathu Tamrakar upto temple of Khermai .

South—From the house of Gauri Shankar beldar Rehvar ground and new basti upto house of Sampat Kushwhah.

West—From the house of Gauri Shankar Prasmaniya road and Kolan Kari Mati upto south side of house Umeshi Kumhar.

Ward No. 13—A. Kalam Azad Ward

North—From the house of Mubarak Ali upto Prasmaniya road house of the Mo. Jalal.

East—House of Kunchedhi Ghosh upto east side Temple of Gauri Shankar.

South—Form house of Mo. Gani upto south side of Gauri Shankar Mandir towards house of Kunchedhi Ghosh.

West—From house of the Mubarak ali upto east side house of the Mo. Gani.

Ward No. 14—Ambedkar Ward

North—From the house of Arjun Basor to maihar road west side house upto culvert.

East—From the house of Sarman Maihar road east and west side of house upto culvert.

South—From the house of Kandhi Lal Kushwah upto Prasmaniya road house of Vindeshwari Tamer.

West—From the house of Vindeshwari Tamer upto house of Nathu Lal Sahu.

Ward No. 15—Laxmi Bai Ward

North—From the house of Hamid Mo. Salim to Ramana Tola upto south side Chikan Dharmshala.

East—From the house of Salim Mo. Mahiar road west side upto house Lakhan Tamrakar.

South—From the house of Lakhan Tamrakar upto house of Parmeshwar Din Carpenter.

West—From the house of Parmeshwar Din Carpenter upto east side of Chikaan Dharmshala.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
MOHAN LAL MEENA, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 21 अप्रैल 2014

शुद्धि-पत्र

क्र. 1050—न. प. चित्रकूट-अ. वा.वि.-शुद्धि-पत्र-2014.—मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-दो में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 789 जिसका प्रकाशन दिनांक 28 मार्च 2014 को पृष्ठ क्र. 825 से 829 में नगर परिषद्, चित्रकूट, जिला सतना के अन्तिम वार्ड विभाजन की अधिसूचना का प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी में हुआ है। अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति में नगर परिषद् नामली के स्थान पर नगर परिषद्, चित्रकूट, जिला सतना पढ़ा जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर.